



दैनिक

# पुष्पांजली टुडे



नई सोच नई पहल

ज्वालियर: वर्ष: 3 : अंक: 134

ज्वालियर शुक्रवार, 03 मार्च 2023

पृष्ठ: 8 मूल्य: 2 रुपए

## एक नजर

### चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला



चुनाव आयोग में शीघ्र नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि, मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोगों की नियुक्ति अब पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष की कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 5-0 की सर्वसम्मति से दिए फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोगों का चुनाव तीन सदस्यीय समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है, यह नियम तब तक जारी रहेगा जब तक संसद इन नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बनाती। कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष का नेता न होने की स्थिति आने पर भी आदेश में स्पष्ट किया है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता समिति में होगा।

### सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग केस में बनाई एक्सपर्ट कमेटी

नई दिल्ली। अडानी-हिंडनबर्ग केस को लेकर गुरुवार (2 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह पर अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उत्पन्न मुद्दों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। पूर्व जस्टिस अभय मनोहर स्प्रे की अध्यक्षता वाली समिति में दिग्गज बैंकर केवी कामथ और ओपी भट, इंप्रोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि, ओपी भट और पूर्व जज जेपी देवधर शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि बाजार नियामक सेबी अपनी चर्चा कर रही जांच को दो महीने में पूरा करे और एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह भी जांच करने का निर्देश दिया कि क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है और क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर किया गया था। न्यायालय ने केंद्र, वित्तीय सांख्यिक निकायों, सेबी चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को फैसला सुनिश्चित रखते हुए प्रस्तावित विशेषज्ञ पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा कि वह निवेशकों के संरक्षण के लिए पूरी पारदर्शिता चाहती है। उसने प्रस्तावित समिति के कामकाज पर किसी सेवारत न्यायाधीश के निगरानी रखने की संभावना को भी खारिज कर दिया था। इस मुद्दे पर शीघ्र अदालत में अब तक चालू जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। वकील एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के खिलाफ कई आरोप लगाए जाने के बाद, समूह के शेयरों की कीमतों में काफी गिरावट आई है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि, समूह ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है।

### त्रिपुरा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत



नई दिल्ली। नॉर्थ-ईस्ट के तीन राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। जिनमें से त्रिपुरा में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी राज्य में आईपीएफटी की सत्ता चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा राज्यों में नगालैंड में भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि मेघालय में बीजेपी 10 के आंकड़े को भी अभी नहीं छू पाई है। इसके बावजूद बीजेपी की नजरें इस राज्य पर भी टिकी हुई हैं। इसके लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंत बिस्व सरमा पहले ही बिसात बिछा चुके हैं। राज्यों के बीच जानते हैं कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी के लिए क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं। क्योंकि त्रिपुरा और नगालैंड में तो बीजेपी सत्ता तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, इसीलिए पहले बात मेघालय की कर लेते हैं। मेघालय में बीजेपी ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का एलान किया था। बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि फिलहाल सामने आए राज्यों में बीजेपी 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। इसके बावजूद मेघालय में बीजेपी सरकार बनाने की जुगत में लग गई है। मेघालय का इतिहास रहा है कि यहां पर हमेशा जोड़-तोड़ कर सरकार बना ली जाती है। किसी भी पार्टी को बहुमत मिलना काफी मुश्किल होता है, ऐसे में चुनाव के बाद ही असली खेल शुरू होता है। नतीजों से ठीक पहले असम के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिस्व सरमा ने इसके संकेत भी दे दिए, नतीजों से पहले मुख्यमंत्री कोनराड संगमा आए हिमंत बिस्व की मुलाकात ने इस बात को साफ कर दिया कि राज्य में बीजेपी एनपीपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। कुल मिलाकर हिमंत बिस्व सरमा की एंटी ने बीजेपी के लिए मेघालय में उम्मीदें बरकरार रखी हैं।

## नॉर्थ-ईस्ट में कांग्रेस फेल, नगालैंड-त्रिपुरा में नहीं खुला खाता

नई दिल्ली। त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है। शुरुआती रणनीतियों में कांग्रेस की हालत बेहद खराब दिख रही है। अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस नॉर्थ-ईस्ट में बेहतर प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। त्रिपुरा की बात करें तो एक तरफ जहां बीजेपी यहां दूसरी बार बहुमत के करीब है, वहीं कांग्रेस का यहां खाता तक नहीं खुलता दिख रहा है। त्रिपुरा में भाजपा फिलहाल 29 सीटों पर आगे है। शुरुआती रणनीतियों की तुलना में मौजूद आंकड़े बीजेपी के लिए भी सुखद नहीं कहे जा सकते, क्योंकि शुरुआत में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा था, जो अब बहुमत के आंकड़े से दूर हो गई है। इसके अलावा नगालैंड में तो कांग्रेस का हाल और बुरा है। यहां कांग्रेस का खाता तक खुलता नहीं दिख रहा। नगालैंड की 60 में से 55 सीटों के रणना आ चुके हैं। इनमें से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई है। मेघालय में कांग्रेस महज चार सीटों पर बजट बनाये हुए है। कांग्रेसी नेता खुद

शुरुआती रणनीतियों को देख हैरान हैं। इन आंकड़ों को देख कहा जा सकता है कि 2023 की शुरुआत कांग्रेस के लिए निराशाजनक रही है। गौरतलब है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। लिहाजा यह चुनाव और महत्वपूर्ण हो जाता है। नगालैंड में भाजपा गठबंधन 43



सीटों पर आगे है और सत्ता के नजदीक दिखाई दे रही है। यहां एनपीएफ 3 सीटों पर आगे है। अन्य उम्मीदवार 08 सीटों पर बजट बनाए हुए हैं। इन राज्यों के मुताबिक भाजपा गठबंधन सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस

के लिए इस राज्य का चुनावी परिणाम किसी बुरे सपने की तरह है। बता दें कि पिछली बार उसका यहां खाता तक नहीं खुला था। मालूम हो कि कांग्रेस 2003 से इस राज्य में सत्ता वापसी नहीं कर सकी है। मेघालय में कॉनराड संगमा की एनपीपी अब सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। एनपीपी ताजा राज्यों में 23 सीटों पर आगे चल रही है। टीएमसी अब सिर्फ 8 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य 16 सीटों पर बजट बनाए हुए हैं। मेघालय में भाजपा और कांग्रेस 6-6 सीटों पर आगे है। यानी वहीं भी कांग्रेस दखई का आंकड़ा नहीं छू पा रही है। मेघालय में जहां कांग्रेस ने इस बार नए चेहरों पर दांव आजमाया था तो वहीं राहुल गांधी ने एक रेली भी यहां की थी लेकिन उसका उतना असर जनता पर होता नहीं दिख रहा है। इस बीच चुनाव के रणनीतियों को देखकर कांग्रेस ने मान लिया है कि यह उसके लिए झटका है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इन नतीजों को पूरे देश पर लागू करना गलत होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रचार को यहां जीत मिली है। लेकिन इसे पूरे देश का रणना कहना गलत है।

## सीएम योगी ने तोड़ा यूपी के सभी दिग्गजों का रिकॉर्ड

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया गया है। अब सीएम योगी के नाम यूपी का सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने की रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती समेत कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। यूपी का सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब सीएम योगी के नाम हो गया है। उन्होंने अभी तक पांच साल और 347 दिनों तक लगातार सीएम रहने की रिकॉर्ड बनाया है। इसके पहले ये रिकॉर्ड कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहे की कमान डॉ. संपूर्णानंद को मिली थी। तब 28 दिसंबर 1954 से 9 अप्रैल 1957 तक डॉ.

संपूर्णानंद अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार में 10 अप्रैल 1957 से 6 दिसंबर 1960 तक मुख्यमंत्री रहे। हालांकि यूपी में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वालों की सूची बहुत छोटी है। इस सूची में सीएम योगी के अलावा गोविंद वल्लभ पंत, मायावती और अखिलेश यादव का नाम है। योगी के अलावा ये नेता यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। सबसे ज्यादा वक्त तक सीएम रहने के मामले में तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव हैं। सपा प्रमुख 5 साल और 4 दिन तक सीएम रहे हैं। इसके अलावा चौथे नंबर मायावती का नाम है। मायावती चार साल और 335 दिन तक यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं। बीएसपी चीफ यूपी की चार बार मुख्यमंत्री रहे चुकी हैं।



### मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी के एनजीओ पर क्यों हुई कार्रवाई

केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर के नेतृत्व में चल रही दिल्ली स्थित एनजीओ 'पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक' सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का फॉरेन कंट्रीव्हेल रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि ये संस्था नियमों का उल्लंघन कर रही थी। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह एनजीओ पहले भी एफसीआरए के नियमों के उल्लंघन कर चुकी है। जिसके चलते यह पहले भी सरकार के रडार पर था। वहीं लाइसेंस सस्पेंड करने से पहले थिंक टैंक पर इनकम टैक्स का सर्वे भी हो चुका था। पिछले साल सितंबर में सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया पर इनकम टैक्स सर्वे के बाद लाइसेंस की जांच कर ली थी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर इस एनजीओ के नई दिल्ली की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं, जिन्हें साल 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था।

## बस्तर आएं देश के गृहमंत्री अमित शाह

छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह इस साल जगदलपुर के करणपुर में मौजूद सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में मनाते जा रहे हैं। बस्तर में पहली बार आयोजित हो रहे सीआरपीएफ के स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं देश के गृहमंत्री अमित शाह भी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह 19 मार्च को जगदलपुर पहुंच रहे हैं और वहीं सीआरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे प्रदेश स्तर के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें चुनावी मंत्र भी देंगे। इस साल छत्तीसगढ़ में होने

वाले चुनाव को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृहमंत्री के साथ सीआरपीएफ के डीजी, आईबी के चीफ और छत्तीसगढ़ के डीजीपी समेत बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात पुलिस के सभी कर्पिनियों के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दरअसल देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर में उदात्त विरोधी अभियानों और जम्मू में आतंकवाद विरोधी अभियानों के तीन मुख्य क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा बल के रूप में नामित किया गया है। पिछले साल जम्मू में

सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया था। वहीं इस साल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से लगे करणपुर में मुख्यालय में पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बस्तर जिन के सीआरपीएफ के प्रमुख अधिकारियों ने बताया कि आगामी 19 मार्च को सीआरपीएफ 84वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस कार्यक्रम में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है, इसको लेकर अभी से ही करणपुर में तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कार्यक्रम में देशभर के सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और नक्सल मोर्चे पर तैनात

जवानों से बातचीत करेंगे। हालांकि अधिकारी ने कार्यक्रम का शेड्यूल अभी जारी नहीं किया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता केंद्रीय कश्यप का कहना है कि केंद्रीय गृहमंत्री के बस्तर प्रवास पर आना लगभग तय हो चुका है, 19 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बस्तर प्रवास पर आएं और सीआरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। हालांकि अब तक गृहमंत्री का निर्धारित कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन उनके बस्तर आगमन को लेकर बस्तर के साथ-साथ पूरे प्रदेश भर के भाजपाइयों में काफी खुशी है। वहीं आम सभा को लेकर केंद्रीय कश्यप ने अब तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं होने की बात कही है।



## त्रिपुरा-नगालैंड में बीजेपी गठबंधन की वापसी

नई दिल्ली। त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए गुरुवार (2 मार्च) को मतगणना हो रही है। पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला कुछ ही देर में आ जाएगा। अभी तक के राज्यों के मुताबिक त्रिपुरा में 32 और नगालैंड में बीजेपी गठबंधन को बहुमत हासिल है, जबकि मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के आसपास दिख रहे हैं। त्रिपुरा में सत्ताधारी बीजेपी आईपीएफटी

गठबंधन बहुमत पाता दिखाई दे रहा है। अभी तक के राज्यों में बीजेपी गठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 16 सीटों पर बजट हासिल है। वहीं, नई नवेली टिपरा मोथा ने सभी को चौंकाया है। टीएमपी 11 सीटों पर आगे है। मेघालय विधानसभा की 59 सीटों पर मतदान हुआ था। हालांकि, राज्य में 60 साटों में लेकिन प्रत्याशी के निधन के चलते एक सीट पर चुनाव नहीं कराया गया। ताजा राज्यों के

मुताबिक राज्य में एनपीपी 25 सीटों पर बजट बनाकर सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। मेघालय में एक सीट नर्तियांग पर परिणाम घोषित हुआ है, जो एनपीपी के खाते में गई है। बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा है और उसे 5 सीटों पर बजट हासिल है। नगालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करता दिख रहा है। दोपहर तक के राज्यों में बीजेपी गठबंधन 60

में से 40 सीटों पर बजट बनाए हुए हैं। राज्य में बीजेपी को दो सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी के कामेझो किनिमी निर्विरोध जीते हैं जबकि ल्युएनसांग सदर-1 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की है। मुख्य विपक्षी दल नगा पीपल्स फ्रंट सिर्फ तीन सीटों पर आगे चल रहा है। कांग्रेस को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है जबकि अन्य 17 सीटों पर आगे हैं।

## क्या कंगाल पाकिस्तान परमाणु हथियार बेच कर कर्ज चुकाएगा

पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे हमेशा से ही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकवाद फैलाने वाले देश के रूप में जाना जाता है। देश में फिलहाल आर्थिक हालात भी खराब चल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पाक ने अपनी सेना के बजट में कटौती कर दी है। यानी की अब पाकिस्तान के पास अपनी सेना के लिए भी पर्याप्त बजट नहीं है। यहां तक की रिपोर्ट में यह तक सामने आया है कि पड़ोसी मुल्क की सेना को ठीक से खाना-पीना भी नसीब नहीं हो रहा है। ये कटौती केवल सेना के बजट में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समेत कई अहम मंत्रालयों में भी देखने को मिल रही है। बजट में इस बार कटौती साफ बताती है कि पाकिस्तान के हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं। अब इस बीच इस चीज का दावा भी किया जा रहा है कि मुल्क अपने परमाणु हथियारों

को चोरी छिपे फिर बेचने की कोशिश करे। ईरान और है। अब ऐसे में गंभीर सवाल यही है कि आखिर कैसे उतर कोरिया को वह पहले ही टेक्नोलॉजी बेच चुका पाकिस्तान अपने ऊपर लदे सभी कर्ज चुकाएगा। क्या

वह सच में इसके लिए अपने परमाणु हथियार बेचने वाला है और अगर ऐसा है तो इससे मुल्क कितना कर्ज चुका पाएगा। फिलहाल पाक के ऊपर कर्ज 62.46 ट्रिलियन यानी 274 बिलियन डॉलर का करीब है। इसके बाद भी वह लगातार चीन सऊदी अरब जैसे देशों से कर्ज ले रहा है। इन सभी हालातों के बीच अगर पाक अपने परमाणु हथियार को बेचने की कोशिश करता है तो मुल्क के पास इस वक्त 165 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इन सभी हथियारों की कुल कीमत करीब 44 हजार 5550 मिलियन डॉलर के होंगे। अगर पाक इन्हें बेच भी देता है तो वह अपने पूरे कर्ज को नहीं उतार सकेगा। पाकिस्तानी सेना का भले ही बजट काट दिया गया हो लेकिन यहां की सेना अपनी बेशर्त कर्तव्यों से बाज नहीं आ रही है। सेना ने हिज्बुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन को बुलेट फ्लफ कार दे दी है। इससे पहले पाकिस्तान में हिज्बुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहद्दीन खुलेआम घूमता देखा गया था।



# मां बड़ी देवी प्रांगण में चल रही है श्रीमद्भागवत कथा



**यदि हम स्वयं से प्रेम कर सकते हैं, तो फिर दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से दूसरों से घृणा कैसे कर सकते हैं: देवी चित्रलेखाजी**

**रितेश अवस्थी, पुष्पांजली टुडे**  
दमोहा। शहर के मां बड़ी देवी मंदिर में स्वर्गीय श्री राजाराम राय साव जी की स्मृति में आयोजित भागवत कथा में देवी चित्रलेखा जी के मुखारबिंद से श्रीमद्भागवत कथा में कहीं की स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद यदि हम स्वयं से प्रेम कर सकते हैं, तो फिर दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से दूसरों से घृणा कैसे कर सकते हैं। समाज की मानसिकता ने ही गोपियों को मजबूर किया है कि वो अब एक राक्षस की कैद से बाहर आने के बाद वापस घर न जाए। समाज की नजरों में वो कलकित थी। भगवान की भक्ति कीजिए जिनका नाम सूर्य के समान है। जिस

प्रकार सूर्य के किंचित उदय होने पर रात्रि का अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण-नाम का थोड़ा-सा भी प्राकट्य अज्ञान के सारे अन्धकार को, जो विगत जन्मों में सम्पन्न बड़े-बड़े पापों के कारण हृदय में उत्पन्न होता है, दूर भगा सकता है। कथा के छठवें दिवस में पूज्या देवी चित्रलेखाजी ने भगवान के द्वारा कि गयी लीलाओं का श्रवण कराते हुए बताया कि ब्रज में की गयी भगवान की लीला स्वयं नारायण भी नहीं कर सकते। इन लीलाओं के द्वारा भक्तों को रिझाना सिर्फ भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। और वृन्दावन भगवान का घर हुआ इसलिए प्रभु ने सब लीलाओं को एक साधारण बालक की

तरह किया। और इस नन्हे से बालक ने अपनी मनमोहक लीलाओं के द्वारा गोपियों का मन ऐसा मोह के गोपियों को अब न भोजन की सुध रहती है न अपने परिवार की और न ही किसी काम धाम की। गोपियों दिन रात कन्हैया का दर्शन करने को लालयत रहती हैं और मैया यशोदा के घर किसी न किसी बहाने के साथ जा के गोविन्द का दर्शन करतीं। देवीजी ने कथा विषय में आगे बरुण लोक से नन्द बाबा को छोड़कर लाने की कथा, और अन्य कथाओं का श्रवण कराते हुए रास लीला का कथा का वर्णन श्रवण करोगा की जब भगवान ने वंशी बजा के गोपियों को अर्धरात्रि में निमंत्रण दिया और सभी गोपियों अपना घर बार

छोड़कर भगवान के समीप पधारी। भगवान ने सभी गोपियों की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन्हें घर जाने को कहा मगर गोपियों ने भगवान से ही प्रश्न किया कि संसार प्रभु प्राप्ति के लिए लाखों प्रयत्न करता है और फिर प्रभु की शरण में आता है। मगर हम जब आपको प्राप्त कर ही चुके हैं तो आप हमें दोबारा संसार सागर में जाने को क्यों कहते हो इ गोपियों की बात मान कर प्रभु ने गोपियों के भीतर दश मात्र अभिमान को मिटाने के लिए लीला की और प्रभु के अदृश्य हो जाने के कारण गोपियों ने प्रभु को मनाने के लिए अथक प्रयास किया। परंतु प्रभु नहीं आये तब विरह जब सीमा से अधिक हो गया, करोड़ों गोपियों ने एक

साथ गोपी गीत गाया। प्रभु प्रगट हुए और प्रभु के एक स्वर के साथ 2 गोपियों ने महारस किया। इसके पश्चात प्रभु के मथुरा गमन की कथा, प्रभु की शिक्षा, उद्धव संवाद, मामा कंस वध आदि कथा का श्रवण करा कर भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह की कथा कह कर कथा के छठवें दिवस को विश्राम दिया। इस दौरान प्रमुख रूप से चन्द्र गोपाल पौराणिक, सुमन देवी राय, कमलेश भारद्वाज, आशीष कटारे, राजीव राय, राजेश पाण्डेय, मोटी रैकवार, ओम रैकवार, गोविंद राय, गोपाल राय, प्रकाश शिवहरे, पंकज राय, कपिल राय सहित बड़ी संख्या में भक्त जनों की मौजूदगी रही।

## थाना मेहगांव पुलिस का अवैधानिक गतिविधियों पर लगाम हेतु रात्रि कस्बा भ्रमण

थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा की जनता से अपील अपराधियों की जानकारी भेरे मोबाइल नंबर पर देखकर अच्छे नागरिक का दायित्व निर्वहन करें

महेंद्र शर्मा उप संपादक पुष्पांजली टुडे



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कमलेश कुमार खरपूसे जी तथा एसडीओपी महोदय मेहगांव श्री आरकेएस राठौर जी के नेतृत्व में थाना प्रभारी मेहगांव निरीक्षक रविंद्र शर्मा द्वारा अपने बल के साथ रात्रि में कस्बा भ्रमण किया गया। कस्बा भ्रमण के दौरान मेहगांव पुलिस द्वारा भिंड मेहगांव तिराहा, गोर्मी तिराहा, हट बाजार तथा मुख्य बाजार में पैदल मार्च निकाला पैदल मार्च के दौरान रोड किनारे लगे डेलो पर व उसके आस पास शराब पीते मिले लोगों को सख्त हिदायत दी, अवैधानिक रूप से शराब बेचते मिले लोगों पर 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की, रात्रि में अनावश्यक रूप से घूमते लोगों की रोक-टोक की, आने जाने वाले सदिध लोगों से पूछताछ कर उनकी फोर व्हीलर गाड़ियों को चेक किया गया। सूचीबद्ध निगरानी बदमाशों व गुंडों को उनके घरों पर चेक कर अपराध से दूर रहने की हिदायत दी। मेहगांव की जनता से थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा की अपील यदि जहां भी अपराध व अपराधियों की जानकारी भेरे मोबाइल नंबर 9300599021 पर देकर सजग नागरिक के दायित्वों का निर्वहन करें।

## पुलिस थाना पिछोर ने ग्राम हरी नगर से बदमाश को गिरफ्तार कर भेजा जेल

राकेश परिहार रिपोर्टर पिछोर



पिछोर। फरियादिया नंदकुंवर पत्नी स्वर्गीय भगवानदास लोधी निवासी हरीनगर ने भूरा लोधी व उसके भाई कल्लू लोधी के विरुद्ध शराब पीकर घर पर उपद्रव करने व मारपीट करने के प्रयास की रिपोर्ट की जिस पर से पुलिस थाना पिछोर की टीम ने टी आई गब्बर सिंह गुर्जर के निर्देशन में हरी नगर में दबिशा देकर कल्लू लोधी उर्फ नकटा को गिरफ्तार किया जिसके पास एक लोहे का धारदार छुरा मिला जिसे धारा 25 (क) आर्म्स एक्ट व धारा 151 जाब्ता फौजदारी में गिरफ्तार कर कोर्ट व तहसील पेश किया जिसे उप जेल पिछोर भेज दिया। भूरा लोधी और उसका भाई कल्लू लोधी का ग्राम हरी नगर में काफी आतंक है। दोनों भाई रात दिन शराब पीकर उपद्रव करते हैं हरि नगर ग्राम वासियों ने पुलिस को बताया कि इनके उपद्रव से रात में आम जनता सो भी नहीं पाती है। अभी बदमाश भूरा लोधी की तलाश जारी है। पुलिस थाना हजीरा की टीम में एएसआई शैलेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक संतोष सिंह यादव, आरक्षक प्रदीप कौरव व बचान सिंह तोमर व ह नगर रक्षा समिति सदस्य चंदन लोधी की की मुख्य भूमिका रही।

## मोदी सरकार का मॉडल देश के युवा और आमजन के लिए अब चिंता का विषय: सुधांशु त्रिपाठी

कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से नफरत को दूर भगा रहे हैं: मानसिंह कुशवाहा



**दैनिक पुष्पांजली टुडे**  
भिण्ड। केंद्र में मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद लोकपाल लाने वाली बात को ताले में बंद करके भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया है और केंद्र सरकार महंगाई रोजगारी को कम करने से पूरी तरह से नाकाम रही है, आमजन के लिए चुनौती राष्ट्र सरकार देश की जनता के हित में योजनाएं बनाने की वजाह अपने उद्योगपति मित्रों के लिए देश का खजाना लूटने के लिए खोलने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारि उपक्रमों को एक-एक कर आज अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपत जा रहे हैं, तो ऐसा मोदी मॉडल युवाओं और देश की जनता के लिए चिंता का विषय है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मध्यप्रदेश के सह

प्रदेशवासियों को एकजुट करेगी। और जनता के हित में मंत्री विधायकों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सड़को पर उतरकर संघर्ष करेगी। म.प्र सेवादल यंग ब्रेगड के अध्यक्ष धर्मेश भदौरिया पिंकी ने सभी बुजुर्गों और वरिष्ठ नेताओं का माला पहनाकर स्वागत किया। और स्वागत भाषण देते हुए कहा भाजपा सिर्फ झूठे वादे करती है महंगाई कम करने की जगह महंगाई बढ़ा रही है इसलिए गैस सिलेंडर फिर से 50 रुपए महंगा कर दिया अब गावों में भी हाऊस टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। पूर्व प्रत्याशी डा. राधेश्याम शर्मा ने कहा किसानों को पिछले 18 वर्षों से खाद के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा है ये सरकार

## बहनों के लिए मील का पत्थर साबित होगी लाडली बहना योजना: गोविन्द सिंह राजपूत (राजस्व एवं परिवहन मंत्री)


रितेश अवस्थी, पुष्पांजली टुडे

दमोहा। बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत किये गये बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट आम आदमी का बजट है। इस बजट में महिलाओं को विशेष रूप से सम्मान दिया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद प्रदेश में बहनों के सम्मान को बढ़ाने के लिये लाडली बहना योजना में प्रदेश सरकार ने आठ हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। यह महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न योजनाएं मिशन मोड में प्रारंभ की गई है। इस बजट का लक्ष्य महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीब वर्ग, आम जनता को नई शक्ति देने एवं नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है। राजपूत ने कहा कि इस बजट में सरकार ने सर्वोच्च वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, विशेष प्रावधान किये गये है। इस बजट से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। बजट में अनुसूचित जाति के सम्मान को गौरवान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ का प्रावधान किया है। जिससे सागर में संत रविदास का मंदिर का निर्माण किया जायेगा। यह विश्व का इकलौता संत रविदास मंदिर होगा। बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। इस वर्ग के 36 हजार 950 करोड़ का प्रावधान किया गया है।



## मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत काशी एवं पुरी यात्रा हेतु आवेदन 10 मार्च एवं 18 मार्च तक आमंत्रित

राकेश परिहार रिपोर्टर पिछोर



शिवपुरी। मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेशानुसार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत काशी (वाराणसी) तथा पुरी तीर्थ यात्रा मार्च में सम्पन्न कराई जायेगी। जिले से तीर्थ दर्शन हेतु ट्रेन काशी के लिये 330 यात्रियों को लेकर 21 मार्च को प्रस्थान करेगी और 24 मार्च को वापस आएगी। इस यात्रा के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च एवं संचालक तीर्थ दर्शन तथा आई.आर.सी.टी. को अंतिम तिथि 14 मार्च को उपलब्ध कराई जायेगी। तीर्थ दर्शन हेतु ट्रेन पुरी के लिये 230 यात्रियों को लेकर 29 मार्च को प्रस्थान करेगी और 3 अप्रैल को वापस आएगी। इस यात्रा के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च एवं संचालक तीर्थ दर्शन तथा आई.आर.सी.टी. को अंतिम सूची 22 मार्च को उपलब्ध कराई जायेगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत आवेदन करने का इच्छुक आवेदक जिले का निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु का हो, आयकर दाता न हो, पूर्ण कोविड वैक्सिनेशन सर्टीफिकेट हो तथा इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो। नियमानुसार पात्रता का परीक्षण करने के उपरांत यात्रियों का चयन कम्प्यूटराईज लॉटरी से कर आवंटित संख्या के अनुसार यात्रियों की सूची एवं 10 प्रतिशत यात्रियों की प्रतीक्षा सूची संबंधित अनुविभागीय अधिकारी के अनुमोदन पश्चात काशी हेतु 11 मार्च तक एवं पुरी हेतु 19 मार्च तक जिला शहरी विकास अधिकरण में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

## नर सेवा ही नारायण सेवा: सांसद डॉ.के.पी.यादव

कोलारस-शिवपुरी विधानसभा में सम्पन्न हुआ सरपंच:सचिव सम्मेलन

अनिल कुशवाहा प्रभारी पुष्पांजली टुडे शिवपुरी-गुना-शिवपुरी-अशोकनगर सांसद डॉ.के.पी.यादव

नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया है, जिसके परिणामस्वरूप हम सभी जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर आज

द्वारा आश्वासन दिया गया व अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि

धाकड़, महामंत्री राम सरैया सहित कोलारस विधानसभा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके पश्चात सांसद डॉ.के.पी.यादव ने मानस भवन शिवपुरी में शिवपुरी विधानसभा के सरपंच व सचिव सम्मेलन में शिरकत की। जहाँ सांसद डॉ यादव ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। किसान का बेटा हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। आप सबके बीच सामान्य परिवार का आपका बेटा आपका



है कि हम लोगों का भला कर सकें। शास्त्रों में कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। सांसद यादव ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने प्रत्येक

यहां विराजमान है। इस अवसर पर सरपंच व सचिवों ने अपनी-अपनी समस्याएं एवं क्षेत्र की मांग स्थानीय सांसद के समक्ष रखी, जिनके निराकरण हेतु सांसद डॉ.यादव

गणेश धाकड़, अवतार सिंह यादव, सिमरन रंधावा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गुरूप्रीत सिंह चीमा, मंडल अध्यक्ष कोलारस शिखर धाकड़, कुबेर सिंह

सांसद बनकर आपके समक्ष खड़ा है। सभी उपस्थित सरपंच व सचिवों ने अपनी-अपनी समस्याएं व क्षेत्र की मांग सांसद डॉ.के.पी.यादव के समक्ष रखीं।

# नवांगत थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा कस्बे में सक्रिय



**थाना मेहगांव पुलिस का अवैधानिक गतिविधियों पर लगाम हेतु रात्रि कस्बा भ्रमण**

**उमाकान्त शर्मा पत्रकार**  
श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कमलेश कुमार खरपूसे जी तथा एसडीओपी महोदय मेहगांव श्री आरकेएस राठौर जी के नेतृत्व में थाना प्रभारी मेहगांव निरीक्षक रविंद्र शर्मा द्वारा

अपने बल के साथ रात्रि में कस्बा भ्रमण किया गया। कस्बा भ्रमण के दौरान मेहगांव पुलिस द्वारा भिंड मेहगांव तिराहा, गोरमी तिराहा, हाट बाजार तथा मुख्य बाजार में पैदल मार्च निकाला पैदल मार्च के दौरान रोड किनारे लगे ठेलो पर व उसके आस पास शराब



पीते मिले लोगों को सख्त हिदायत दी, अवैधानिक रूप से शराब बेचते मिले लोगों पर 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की, रात्रि में अनावश्यक रूप से घूमते लोगों को रोक-टोक की, आने जाने वाले सदिग्ध लोगों से पूछताछ कर उनकी फोर व्हीलर गाड़ियों को चेक किया

गया एवं सूचीबद्ध निगरानी बदमाशों व गुंडों को उनके घरों पर चेक कर अपराध से दूर रहने की हिदायत दी। मेहगांव की जनता से थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा की अपील यदि जहां भी अपराध व अपराधियों की जानकारी मिले तो तुरंत सूचना भेजें।

# गुंडा पंजी में नामित एचएसएस लोगों की अम्बाह थाने में कराई गई परेड

**अम्बाह।** होली के त्यौहार को शांति पूर्ण ढंग से मनाने को लेकर गुरेना जिले के विभिन्न थानों में गुंडा परेड कराई गयी। एसपी आशुतोष बागरी के निर्देश पर अम्बाह पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में यह परेड कराई गई। इसके माध्यम से संदेश दिया गया कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। अम्बाह थाना में टीआई बिनय यादव की उपस्थिति में गुंडा परेड कराई गयी। गुंडा पंजी में शामिल असामाजिक तत्वों ने परेड किया। ऐसे लोगों के नामों का भौतिक सत्यापन करते हुए उनके आचरण की भी जांच की गई। परेड में अम्बाह थाना क्षेत्र के लगभग दो दर्जन से अधिक दागी उपस्थित हुए। इस दौरान अधिकारियों ने दागी व्यक्तियों को सही तरीके से जीवन जीने की सलाह दी। उन्हें बताया गया है अच्छे चाल-चलन पर गुंडा पंजी से नाम हटया भी जा

सकता है। थाना प्रभारी ने अपराध के ग्राफ को कम करने के लिए असामाजिक तत्वों की काला बाजारियों, दंगाइयों, सांप्रदायिक सौहार्द विगाड़ने वालों, भोले-भाले छात्र-छात्राओं को भड़काने वाले, जुआरियों सहित बसों में बदमाशी करनेवालों का नाम शामिल है। मौके पर टीआई बिनय यादव उपनिरी. पारथ सिंह परिहार जितेंद्र शर्मा विवेक शर्मा आदि उपस्थित रहे।

हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। खास बात ये है कि कुल बजट का करीब 33 फीसदी हिस्सा महिलाओं पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है।



पहचान कर गुंडा पंजी तैयार करने का निर्देश जा रहा है। इस गुंडा पंजी में चोरी लूट में व शराब की तस्करी करने वाले, ब्लैक मेलर, मादक पदार्थों के तस्कर, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले,

# कलेक्टर ने ह्यार सेकेण्डरी की चल रही परीक्षाओं का किया निरीक्षण

**ह्यार सेकेण्डरी के हिन्दी विषय की परीक्षा में कुल 19019 छात्र-छात्राओं में से 18123 उपस्थित रहे, 896 रहे अनुपस्थित, दो नकल प्रकरण दर्ज**

**दैनिक पुष्पांजली टुडे**  
भिण्ड । माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश की ह्यार सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा अंतर्गत कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने हिन्दी विषय के प्रश्न पत्र को चल रही परीक्षा में जनता बालक उ.मा.प्रावि., महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ.मा.वि., शांति किशोर शिक्षा महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश की ह्यार सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा अंतर्गत ई-दक्ष केन्द्र कलेक्टर परिसर में संचालित सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी अवलोकन किया।

परीक्षा केन्द्राध्यक्षों से परीक्षा से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने परीक्षा केन्द्रों में ड्यूटी के लिए

सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। अपर कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओपी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं

परीक्षा में कुल 19019 छात्र-छात्राओं में से 18123 उपस्थित रहे, 896 अनुपस्थित रहे, शिव एजुकेशन डीएड



नियुक्त शासकीय सेवकों की उपस्थिति एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षा केन्द्र में शामिल विभिन्न स्कूल

अन्य अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर जाकर परीक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। ह्यार सेकेण्डरी के हिन्दी विषय की

कॉलेज सेमरपुरा एवं शासकीय ह्यार सेकेण्डरी स्कूल असवार में एक-एक नकल प्रकरण दर्ज किया गया।

**शासकीय ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव सातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिक सेह सम्मेलन आयोजन हुआ**

**रीतेश अवस्थी पुष्पांजली टुडे**  
दमोह। ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव शासकीय सातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ. के.पी.अहिरवार के मार्गदर्शन एवं जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष डॉ. विक्रान्त सिंह चौहान की अध्यक्षता में वार्षिक सेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों एवं अतिथियों के द्वारा गायन, नृत्य एवं नाटक की विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में रिटायर्ड मेजर (आर्मी एन्टेलीजेन्स कोर) धनराज करोसिया, रिटायर्ड केप्टन (आर्मी) के. के. मिश्रा, एडवोकेट पंकज हर्ष श्रीवास्तव, आनन्द शिवहरे, लालचंद राय, अभिषेक जैन, सांसद प्रतिनिधि नरेन्द्र बजाज, संजय सरवरिया, सुधीर विद्यार्थी, जनभागीदारी समिति के पूर्व अध्यक्ष पं. सतीश तिवारी, रंगकर्म राजीव अयाची, नगरपालिका अध्यक्ष मंजू वीरेंद्र राय, आदित्य कुमार, प्रीति विश्वकर्मा एवं शहर के गणमान्य नागरिक तथा महाविद्यालय के प्राध्यापकों सहित छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अनिल यादव ने किया एवं आभार कार्यक्रम के संयोजक डॉ हरिओम दुबे ने प्रकट किया।



# केंद्रीय राज्यमंत्री ने एटा पहुंच नशा मुक्ति अभियान को लेकर दिलाया संकल्प, की प्रेस वार्ता



**व्यूरो सोनू कुमार माथुर पुष्पांजलि टुडे**  
एटा। भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर बुधवार को एटा पहुंचे। जहां उन्होंने होटल एसजेडीइन में एक प्रेस वार्ता कर कहा कि हमें नशा मुक्त समाज बनाना है। इसलिए जो लोग नशा नहीं करते हैं उन्हें संकल्प लेना चाहिए कि वे भविष्य में भी कभी नशा नहीं करेंगे। आपको बता दें केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर का एटा पहुंचने पर लायंस क्लब जॉन चेरर पर्सन अनुज प्रताप सिंह चौहान एवं लायंस क्लब के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया और उन्हें राममंदिर का स्वरूप भेंट किया गया। इसके बाद केंद्रीय राज्यमंत्री

ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक प्रेस वार्ता की इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हमें भारत को नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए प्रत्येक नशा न करने वाले व्यक्ति को संकल्प लेना होगा कि वह भविष्य में भी कभी नशा नहीं करेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि उनका एकमात्र पुत्र जो कि नशे का शिकार होकर असमय काल कलित हो गया जिसके बाद वे टूट गए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे भविष्य में ऐसा चाहते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति नशे की वजह से अपने जीवन को नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही परिवार को और कोई नुकसान



पहुंचे। इसके लिए उन्होंने एक संकल्प लिया है कि वे स्वयं लोगों के मध्य पहुंचेंगे और उन्हें संकल्प दिलाएंगे कि भी भविष्य में नशा ना करें और अपना और अपने परिवार का खयाल रखें। इसी के मद्देनजर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर बुधवार को एटा पहुंचे। जहां उन्होंने होटल एसजेडीइन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उसके बाद वे जिला कारागार पहुंचे जहां कैदियों को उन्होंने शपथ दिलाई कि अगर वे नशा नहीं करते हैं तो भविष्य में भी नशा नहीं करें जिससे कि उनका और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। वहीं जिला कारागार से केंद्रीय राज्यमंत्री सीधे राजकीय


ईटर कॉलेज के प्रांगण में पहुंचे, जहां उन्होंने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाहित होने वाले जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। आपको बता दें इस दौरान नशा मुक्ति अभियान में सहयोग के लिए लायंस क्लब जॉन चेरर पर्सन अनुज प्रताप सिंह चौहान के साथ ही अन्य सदस्यों को भी प्रतीक चिन्ह देकर केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संजोयक प्रदीप रघुनंदन, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप जैन, अर्बन को ऑपरेटिव चेररमैन गजेन्द्र सिंह चौहान, देव सोलंकी, संजीव जादीन, आशीष कोहली डॉ अमन चौहान, नागेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे ।

# स्वर्णिम मप्र को साकार करने वाला बजट: किरण

**पुष्पांजली टुडे**  
गवालियर। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट शहर और गांव में चौरफा खुशहाली लाएगा। यह पहला प्रदेश का महिलाओं के हित में इतिहास रचने वाला बजट है। भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सुश्री किरण भदौरिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का कुल बजट है। जिसमें से महिलाओं के लिए 1.02 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बार का बजट महिलाओं के जीवन उत्थान में मील का पथर साबित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लोक हितों को कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रदेश के

पर ई-स्कूटी देने की घोषणा या वृद्ध एवं विधवा पेंशन, महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में अहम कदम उठाया है। वहीं इससे पहले तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने प्रदेश की भानजियों को 10 वी पास करने पर साइकिल देते थे ताकि उनकी उन्नति की राह आसान हो उससे आगे बढ़ते हुए इस बार के बजट में मामाजी ने अपनी भानजियों को ई-स्कूटी देने की घोषणा की है ताकि लाइलियों को आसमान छूने में कोई अड़चन न हो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इतिहास में पहली बार मप्र की भाजपा शासित शिव सरकार ने आधी आवादी को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के लिए बजट बनाया है जो स्वर्णिम मप्र के सपने को साकार करने वाला बजट है।

बजट में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए देने की बात हो या 12वीं में फर्सट डिवीजन पास होने



बजट में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए देने की बात हो या 12वीं में फर्सट डिवीजन पास होने

# अंबाह के अभिषेक ने जीता 36वां राष्ट्रीय युवा उत्सव में पदक

बैंगलोर की जैन यूनिवर्सिटी में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में कई राज्यों के विश्वविद्यालय ने भागीदारी की। जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अंबाह के अभिषेक शर्मा ने मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वाद विवाद प्रतियोगिता विषय जी 20 की अध्यक्षता भारत को विश्वपुर बना सकती है पर विपक्ष करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता। इससे पूर्व अभिषेक ने सतना में हुए मध्य क्षेत्रीय युवा उत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ज्ञात हो की यह अभिषेक की लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय युवा उत्सव भागीदारी थी। पूर्व में भी मध्य क्षेत्र उत्सव को जीत कर 35वें राष्ट्रीय युवा उत्सव

नोएडा में एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय कैप में, साथ ही राज्य स्तरीय युवा उत्सव, निर्वाचन आयोग की प्रतियोगिताओं में, नेहरू युवा केंद्र की प्रतियोगिता आदि में राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर सम्मानित हो चुके हैं। वर्तमान में अभिषेक एमएलबी कॉलेज में विधि के छात्र हैं। उनकी इस सफलता पर विश्वविद्यालय छात्र कल्याण अधिष्ठा डॉ. एसके दिवेदी व टीम मैनेजर वकार कुरेशी ने शुभकामनाएं दीं। टीम के वरिष्ठ साथी सदस्य कृष्ण कांत भागवत, आदर्श सिमोलिया, प्रवीण संखवार आदि ने शुभकामनाएं देते हुए

उज्जवल भविष्य की कामना की।



# जनहित योजनाएं लिखित घोषणा पत्र का विमोचन...

**मैसूरु. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आई.एन.बी.सी.डब्ल्यू.एफ.**



**पुष्पांजली टुडे**  
इकाई के सदस्यों का एक दल मैसूरु से प्रदेश कांग्रेस पार्टी आईएनबीसीडब्ल्यू ईकाई के उपाध्यक्ष नागराजु के नेतृत्व में बेंगलुरु पहुंचा व यहां पर सांसद डी.के. सुरेश से मुलाकात कर कांग्रेस पार्टी सत्ता

में आने पर विभिन्न जनहित योजनाओं लिखित घोषणा पत्र का विमोचन किया गया व बाद में ईकाई के सदस्यों ने एक अभियान चलाकर मतदाताओं के घर-घर जा कर घोषणा पत्र में लिखे बिन्दुओं की जानकारी दी। इस अवसर पर

आईएनबीसीडब्ल्यूए के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश, उपाध्यक्ष नागराजु, मैसूरु जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार, पुडुगारा, महासचिव नायण मैसूरु शहर अध्यक्ष डैरिक मेल्टिन, चामुडेश्वरी क्षेत्र अध्यक्ष मनु.डी आदि उपस्थित रहे।

पंजाब में चिंताजनक माहौल

पंजाब में जिस तरह से माहौल तनावपूर्ण हुआ है, वह गहरी चिंता और सजगता का विषय है। भीड़ ने सीधे पुलिस को निशाना बना दिया और दबाव इतना बढ़ा कि पुलिस भीड़ की मांग मानने के लिए मजबूर हो गई। कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगी लवप्रोत तूफान को पंजाब पुलिस ने शुरूआत को रिहा कर दिया। इतना ही नहीं, उसे रिहा करते हुए पुलिस ने यह भी कहा कि वह दोषी नहीं है। हालांकि, सबने देखा है कि यह रिहाई तब हुई, जब अमृतपाल के हजारों समर्थकों ने अमृतसर में एक पुलिस थाने पर हमला बोल दिया और सीधे कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की धमकी दे दी। ध्यान रहे, तूफान को अपहरण और मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, अब पता नहीं, उसके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं। क्या पंजाब में कानून-व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा है? क्या जिस तरह से संविधान की पालना होनी चाहिए थी, वह हुई है? यदि लवप्रोत तूफान दोषी नहीं है और उसे पुलिस ने गलत ढंग से गिरफ्तार किया था, तब भी यह पंजाब पुलिस के कामकाज पर गंभीर आक्षेप है। वैसे यह पहला मामला नहीं है, जब धर्म की आड़ में की गई मनमानी के सामने सामफल किया गया है। चूंकि इस देश में ऐसे धार्मिक प्रदर्शनों को होने दिया जाता है, इसलिए ऐसे प्रदर्शन कानून-व्यवस्था को धता बताने के लिए यहां-वहां सामने आते रहते हैं। क्या अमेरिका, कनाडा या यूके जैसे किसी अन्य देश में पुलिस के खिलाफ ऐसे हिंसक प्रदर्शन को कोई भी सत्ता मंजूर कर लेती? भारतीय व्यवस्था की उदारता के साथ ऐसे खिलवाड़ के लिए बेशक इस देश की राजनीति ही दोषी है। धर्मध्वजा धामकर उदारता का कैसा मखौल 2021 में 26 जनवरी- गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में उड़ाया गया था, बहुतों को याद होगा। क्या ऐसे बेलागम प्रदर्शनों को यह देश बर्दाश्त कर सकता है और इससे आखिर देश को क्या फायदा होता है? भारतीय लोकतंत्र के उदार साथे में बनने वाले किसी भी संगठन को देश की एकता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। ये भला कैसे संगठन है, जो कानून-सम्मत संघर्ष के बजाय हिंसा से न्याय छीनने या मनमानी करने को लालायित है? आज जिन देशों में सुरक्षित बैठकर कुछ लोग खालिस्तानी अलगाववाद को हवा दे रहे हैं, उन देशों के प्रति भारत को गंभीर हो जाना चाहिए। फिर की जड़ें इस देश की गली-गली में घसरी हुई हैं, कोई उसे सिखा सिर्फ भारतीय पंजाब की भौगोलिक सीमाओं में समेटकर कैसे देख सकता है? समग्र भारतीय मानस में पूरी सहजता के साथ विचार रहे सिख विचार, संस्कार व संस्कृति के अथाह विस्तार को संकीर्णता में समेटने की कोई भी गलती न केवल पंजाब, बल्कि भारत की संपूर्ण पहचान के लिए खतरा है। पंजाब में सबसे ज्यादा सावधान वहां की राजनीति को रहना चाहिए। सबको इतिहास उठाकर देख लेना चाहिए, जब आतंकवाद था, तब सबसे भारी कीमत राजनीति ने ही चुकाई थी। धर्म की आंच पर चोटों की रोटियां सेंकना सबसे आसान है, लेकिन ध्यान रहे, ऐसी आंच जब आग में बदलती है, तब बहुत कुछ खाक होने लगता है। सुरक्षा एजेंसियों को सावधान हो जाना चाहिए। कोई उग्र युवा नेता अगर यह कह रहा है कि पुलिस ने बात नहीं मानी, इसलिए हिंसा हुई, तो आगे क्या आशाएं हैं, अनुमान लगाने में ही लाभ है। इस देश में किसी भी आस्था आधारित संकीर्ण खेमे को इतना मजबूत नहीं बनने देना चाहिए कि वह अदालत लगाकर फैसले सुनाने लगे।

विज्ञान 2047 - आकांक्षा 47 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था

एशिया आर्थिक संवाद के सातवें संस्करण 23-25 फरवरी 2023 में दिखा भारत का दम युवा आबादी की आकांक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था को 2047 तक 47 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता करेगी

वैश्विक स्तर पर भारत का युवा जनसंख्याकिय लाभांश, सबसे बड़ी भारतीय परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जा रहा है - एडवोकेट किशन भावानी

गोंदिया - वैश्विक स्तर पर आज एशिया का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एशिया में 4.7 अरब लोग रहते हैं और यह दुनिया की आबादी का 60 फीसदी हिस्सा है। आईएमएफ के अनुसार, एशिया हल के दिनों में तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है। विश्व के प्रमुख उपभोक्ता भारत और चीन एशिया में हैं। इसलिए एशिया को शामिल किए बिना कोई भी देश अपना व्यापार बाजार नहीं बढ़ा सकता। आज एशिया वैश्विक बाजार का प्राथमिक फोकस बनते जा रहा है क्योंकि बहुत सस्ता श्रम और आसानी से जमीनी की उपलब्धता एशिया को आकर्षक बनाती है। सीमाओं के पार विवाद रखा व्यापार के लिए फायदेमंद होते हैं। इस क्षेत्र में एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है और यह संसाधनों में बहुत समृद्ध है। इसलिए कच्चे माल की उपलब्धता आसान है। आज पूरे एशिया में भारत और विस्तारवादी देश दो प्रमुख हस्तियां हैं, परंतु आज वैश्विक स्तर पर भारत का रुतबा अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि हम रूस और नाटो देशों दोनों के साथ परेलत चल रहे हैं। हमारी विदेश नीति कूटनीति की सकारात्मक चर्चा चर्चा दुनिया भर में होती है। चूंकि 23 से 25 फरवरी 2023 तक पुणे में भारतीय मेजबानी से एशिया आर्थिक संवाद का सातवां संस्करण जोश के साथ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के संबोधन से समाप्त हुआ जिसमें 12 देशों के 44 वक्ताओं ने भाग लिया जिसमें, सम्मेलन

में 3 दिनों में 11 सत्र हुए। इन सत्रों में ग्लोबल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स- लुकिंग फॉरवर्ड; सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को लचीला बनाना; एफटीएफ वी फॉरवर्ड एंड मेटावर्स अंडरस्टैंडिंग द प्यूचर। इमर्जिंग वल्यू ऑर्डर में अग्रणी सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवसाय पर सत्र भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा क्यूरेट किया गया है। अर्थव्यवस्था में क्रांति लाना, भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करना और मुद्राओं को डिजिटल बनाना पर सत्र को द एशिया सोसाइटी इंडिया सेंटर द्वारा क्यूरेट किया गया है। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक रूप से चुनौतीपूर्ण मुद्दे पर दो सत्रसर्मापित किए गए। इसमें %जलवायु अयोग्य है जिसे पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया। इसकी प्रमुख थीम एशिया और उभरती विश्व की व्यवस्था थी। इसमें वैश्विक विकास की संभावनाओं जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। इस संवाद में ब्राजील, अमरीका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, मालदीव, स्विटजरलैंड, सिंगापुर और मैक्सिको समेत अनेक देशों के 44 से अधिक वक्ताओं। अनेक प्रतिनिधि एशिया आर्थिक संवाद की वेबसाइट और डिजिटल मंचों के माध्यम से परिचर्चा में सम्मिलित हुए। इस संवाद का मुख्य फोकस भू-अर्थशास्त्र पर था। एशिया की प्रमुख शक्तियां भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। वे निकट भविष्य में तेजी से बढ़ेंगे। यहाँ कोविड रिकवरी तेजी से हुई है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका को सहायता की आवश्यकता है। यह सम्मेलन एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें मंत्रियों, नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, डोमेन विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वैश्विक व्यापार और वित्त विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय भागीदारी शामिल हुई। इस वर्ष भारत की तः20 अध्यक्षता % भारत की अपनी तः20 अध्यक्षता

के लिए दृष्टि और %तः20 ग्लोबल साउथ विल शेप द तः20 एजेंडा% पर दो महत्वपूर्ण सत्रों के साथ विचार-विमर्श का हिस्सा हुआ। साथियों बात अगर हम एशिया के 25 फरवरी 2023 को माननीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री द्वारा समाप्त समारोह की करें तो, उन्होंने कहा कि एशिया की अपनी विशेष गतिशीलता है, जहाँ हमारे पास ऐसी अर्थव्यवस्थाएँ हैं जो लोकतंत्र और गैर-पारदर्शी और गैर-नियम-आधारित दोनों हैं। उन्होंने कहा, पिछले एक दशक में, भारत अंतरराष्ट्रीयकरण और प्रौद्योगिकी तथा काम करने के आधुनिक तरीके के साथ जुड़ना चाहता है। आज, भारत को 21वीं सदी के देश के रूप में नहीं भी तो स्पष्ट रूप से तो दर्शक के देश के रूप में पहचाना जाता है। हम पहले ही दसवीं सबसे बड़ी से पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आ चुके हैं। आज हमारे पास एक युवा जनसांख्यिकीय लाभांश है, जिसे हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जा रहा है। उन्होंने उद्योग से पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधारों के बारे में, हमारे मजबूत आर्थिक बुनियादी कारकों पर, उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने की अपील की और कहा, हम मानते हैं कि भारत न केवल सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम आने वाले कई दशकों तक ऐसा ही करते रहेंगे। उन्होंने अपने विश्वास को साझा किया कि भारत चार साल या अधिक से अधिक पाँच साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में मेरा खुद का विश्वास है कि हम 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को शायद 35 - 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निकट ले जाएंगे। कोई भी भारतीय किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। उद्योग से पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधारों के बारे में, हमारे मजबूत आर्थिक बुनियादी कारकों पर, उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने की अपील की और कहा, हम मानते हैं कि भारत न केवल सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम आने वाले कई दशकों तक ऐसा ही करते रहेंगे। श्री गोंयल ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष का विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों पर अधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति, ब्याज दरों

और विकास पर परिणामी प्रभाव के लिए विकसित और विकासशील दोनों देशों पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, भारतीय उद्योगों पर और अधिक गर्व करने के लिए हमारे लोगों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और भारत कानून के शासन, उनकी स्वतंत्रता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। एशिया में बहुत अलग आर्थिक दर्शनसह-अस्तित्व में हैं। हमें पर्याप्त प्रणाली और विनिर्माण प्रणाली बनाने में कुछ समय लगेगा, और चीन से आने वाली कम लागत वाली कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं की अफीम से खुद को दूर करने के लिए अपने लोगों और व्यवसायों को भी संवेदनशील बनाना होगा। मुक्त व्यापार समझौतों की चर्चा करते हुए, उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों से कहा कि हमने विश्व के इतिहास में अब तक का सबसे तेज एफटीए किया है, भारत यूईएसमझौता 88 दिनों में पूरा हुआ है। उन्होंने कहा, हमने अस्ट्रेलिया के साथ एक तेज एफटीए भी पूरा किया। दुनिया भारत के साथ काम करने के प्रति यही उत्साह दिखा रही है। इजरायल, कनाडा, ईयू, यूके और जीसीसी के साथ हमारी बातचीत चल रही है। रूस और उसके तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम आने वाले कई दशकों तक ऐसा ही करते रहेंगे। अमेरिका के साथ एफटीए पर एक प्रश्न पर, कहा कि अमेरिका में एफटीए की स्वीकृति के लिए अमेरिकी कांग्रेस से अनुमोदन की आवश्यकता है और अमेरिका में इस पर कोई द्विदलीय समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा, इसलिए एक वैकल्पिक ढांचे के रूप में भारत प्रशांत आर्थिक संरचना की परिकल्पना की गई है। हम लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, प्रौद्योगिकी साझेदारी और अप्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के मामले में अमेरिका के निकट जाने की सोच रहे हैं। अमेरिका के साथ हमारा लगातार संवाद होता है। होली के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव के साथ शीर्ष अमेरिकी कंपनियों का एक विशाल व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। हम भारत-अमेरिका साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए अत्यधिक समय और पूंजी लगा रहे हैं। एमएसएमई को सहायता देने के प्रश्न पर, उन्होंने कहा कि बड़े व्यवसायों के आसपास पूरे इकोसिस्टम को देखते हुए

निर्यात बढ़ाने के किसी भी प्रयास का एमएसएमई पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा -यद्यपि सरकार के पास व्यवसायों को किकस्टार्ट करने की योजनाएँ हैं, अंततः हमें उपभोक्ताओं और व्यवसायों के हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। हम कृत्रिम रूप से किसी क्षेत्र को केवल एक बिंदु तक ही सहायता दे सकते हैं। एमएसएमई हमेशा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए, एमएसएमई के साथ-साथ विनिर्माण प्रणाली बनाने में कुछ समय लगेगा, और चीन से आने वाली कम लागत वाली कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं की अफीम से खुद को दूर करने के लिए अपने लोगों और व्यवसायों को भी संवेदनशील बनाना होगा। मुक्त व्यापार समझौतों की चर्चा करते हुए, उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों से कहा कि हमने विश्व के इतिहास में अब तक का सबसे तेज एफटीए किया है, भारत यूईएसमझौता 88 दिनों में पूरा हुआ है। उन्होंने कहा, हमने अस्ट्रेलिया के साथ एक तेज एफटीए भी पूरा किया। दुनिया भारत के साथ काम करने के प्रति यही उत्साह दिखा रही है। इजरायल, कनाडा, ईयू, यूके और जीसीसी के साथ हमारी बातचीत चल रही है। रूस और उसके तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम आने वाले कई दशकों तक ऐसा ही करते रहेंगे। अमेरिका के साथ एफटीए पर एक प्रश्न पर, कहा कि अमेरिका में एफटीए की स्वीकृति के लिए अमेरिकी कांग्रेस से अनुमोदन की आवश्यकता है और अमेरिका में इस पर कोई द्विदलीय समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा, इसलिए एक वैकल्पिक ढांचे के रूप में भारत प्रशांत आर्थिक संरचना की परिकल्पना की गई है। हम लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, प्रौद्योगिकी साझेदारी और अप्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के मामले में अमेरिका के निकट जाने की सोच रहे हैं। अमेरिका के साथ हमारा लगातार संवाद होता है। होली के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव के साथ शीर्ष अमेरिकी कंपनियों का एक विशाल व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। हम भारत-अमेरिका साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए अत्यधिक समय और पूंजी लगा रहे हैं। एमएसएमई को सहायता देने के प्रश्न पर, उन्होंने कहा कि बड़े व्यवसायों के आसपास पूरे इकोसिस्टम को देखते हुए



-संकलनकर्ता लेखक - कर विरोध स्तंभकार एडवोकेट किशन भावानी गोंदिया महाराष्ट्र


मेरा नाम है आजाद: चंद्रशेखर

जाद एक ऐसा शब्द है जो महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ा है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को आजाद रखने का वचन था और उसे आखिरी सांस तक निभाया भी। ऐसे आजादी के महानायक, मां भारती के सच्चे उपासक गदानी देवी- पंडित सीताराम तिवारी के सपुत्र चंद्रशेखर आजाद का अवतरण 23 जुलाई, 1906 त्रे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावर नामक थान पर हुआ था। आजाद का बचपन आदिवासी आहल्य क्षेत्र में स्थित भावर गांव में बीता था। यहां

पर आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए थे। जिसके कारण उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। स्तुत्य, जलियांवाला बाग कांड के समय चंद्रशेखर बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। जब गांधीजी ने सन् 1921 में असहयोग आन्दोलन शुरू किया तो वे अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़क पर उतर आए। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर वेद कथ उग्र में देश की आजादी की लड़ाई का हिस्सा बने थे। जब

सन् 1922 में चैरी चौरा की घटना के बाद गांधीजी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो आजाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसके बाद वे पण्डित राम प्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्रनाथ सान्याल योगेश चन्द्र चर्चजी द्वारा 1924 में गठित हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड

1925 में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। कालजयी, आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर 17 दिसंबर, 1928 की शाम को लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेपी सांडर्स को मार दिया। जब सांडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया, तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। इस हत्याकांड के बाद लाहौर में जगह-जगह परचे चिपका दिए गए, जिन पर लिखा था-



चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। इस हत्याकांड के बाद लाहौर में जगह-जगह परचे चिपका दिए गए, जिन पर लिखा था-

भारत के आर्थिक विकास में भारतीय नागरिकों का है भरपूर योगदान दिव्यता

प्रत्येक वर्ष भारतीय संसद में बजट प्रस्तुत किए जाने के एक दिन पूर्व देश का आर्थिक सर्वेक्षण माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति के सम्बंध में गहराई से अध्ययन करने के उपरांत यह आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाता है। दिनांक 31 जनवरी 2023 को भारत की वित्त मंत्री माननीया श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की आर्थिक स्थिति के सम्बंध में कई ऐसी जानकारियां उपरकर सामने आई हैं, जिनसे भारतीय नागरिकों को संतोष प्राप्त होगा। कोरोना महामारी एवं रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर लगभग सभी देशों ने गम्भीर आर्थिक समस्याओं का सामना किया है। परंतु, यह सुखद तथ्य उपरकर सामने आया है कि भारतीय नागरिकों के सहयोग से भारत ने इन आर्थिक समस्याओं का सामना बहुत सहज तरीके से किया है जिससे इनमें से कई गम्भीर आर्थिक समस्याओं से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत शीघ्रता से उबर सकी है। जबकि अन्य कई देश, विकसित देशों सहित, अभी भी इन समस्याओं से उबरने का गम्भीर प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहिले तो कोविड महामारी से संबंधित चुनौतियों के कारण वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में गम्भीर रुकावटें आईं। अभी यह रुकावटें दूर भी नहीं हुईं थीं कि रूस-यूक्रेन युद्ध प्रारम्भ हो गया जिसका प्रतिकूल प्रभाव वैश्विक स्तर की आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा। विशेष रूप से खाद्य पदार्थों (गेहूँ, आदि), ईंधन तथा उर्वरक की आपूर्ति में अत्यधिक बाधा उत्पन्न हुई और इसके कारण कई देशों में महंगाई की दर इन देशों के पिछले 40 से 50 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसके उपरांत, महंगाई की दर को कम करने के लिए अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज की दरों में उच्च स्तरीय वृद्धि करते जाने के कारण अन्य कई देशों की केंद्रीय बैंकों के सामने अपने देश की मुद्रा के अत्यल्पमान की समस्या खड़ी हो गई। अमेरिकी डॉलर अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में लगातार मजबूत होता चला गया जिसके परिणामस्वरूप इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आयात मुद्रा स्फीति की दर बढ़ती गई एवं इन देशों का व्यापार चालू खाता

इस समस्या के चलते अपने आयात ही कम कर दिए। अन्य देशों की तुलना में भारत ने उक्त वर्णित सभी समस्याओं के प्रभाव को कम करने में बहुत तीव्र गति से सफलता पाई एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पुनः गति पर लौट आई। आज भारत विश्व की लगभग समस्त बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पुनः सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। बल्कि, वर्ष 2022-23 में ही सकल घरेलू उत्पाद के स्तर के अनुसार भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत में एक विशेषता दिखाई दी है कि देश के नागरिकों ने देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों का भरपूर सहयोग किया है। क्योंकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार निजी खपत और छोटी छोटी बचतों के माध्यम से किया गया पूंजी निर्माण रहा है, जिसने रोजगार के सृजन में मदद की है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण भी हुआ है जिससे करों के संग्रहण में जबरदस्त सुधार दिखाई दिया है। कोविड के टीकाकरण में देश के नागरिकों को 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं ताकि कोविड महामारी से बचाव हो सका एवं उपभोक्ता के मनोभाव को मजबूती मिली। यह सब भारतीय नागरिकों के सहयोग के बिना सम्भव नहीं था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों (एमएसएमई) द्वारा ऋण के उपयोग में तेज वृद्धि दर्ज की गई है, यह जनवरी-नवम्बर, 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.6 प्रतिशत की गति से बढ़ा है और इसे केंद्र सरकार की आपात ऋण से जुड़ी गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का भरपूर समर्थन मिला है। इससे सिद्ध होता है कि एमएसएमई क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं एवं उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की धनराशि में भी अत्यधिक वृद्धि परिलक्षित हुई है। कुल मिलाकर बैंक ऋण में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि लगातार बनी हुई है जो उधार लेने वालों के बदलते रुझानों को दर्शाता है एवं अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार के अलावा अब निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। जैसी कि भरपूर सम्भावना है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर

जगत द्वारा उत्पादित की जा रही वस्तुओं की वास्तविक लागत नहीं बढ़ेगी, अतः वित्त वर्ष 2024 में भी ऋणारोप में तेज वृद्धि के बने रहने की भरपूर सम्भावना है। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) भी वित्त वर्ष 2023 के पहले 8 महीनों में 63.4 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जो चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख चटक रहा है। वर्ष 2022 के जनवरी-मार्च तिमाही से निजी पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। वर्तमान रुझानों के अनुसार ऐसा आभास हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023 के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय के बजट को हासिल कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार एवं निजी क्षेत्र से पूंजीगत व्यय के बढ़ने से वित्तीय वर्ष 2023 में आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है और सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत की वृद्धि की कल्पना की गई है। कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों जैसे गोल्डमैन सैक्स, मूडी, फिच, एशियाई विकास बैंक आदि ने भी वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7 प्रतिशत से आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। एमएसएमई ने तो 7.3 प्रतिशत का अनुमान दिया है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत सम्बंधी आह्वान को भी भारतीय नागरिकों द्वारा बहुत गम्भीरता से लिया गया है एवं चीन से आयात किए जा रहे ऐसे कई उत्पादों (खिलौने, फटाके, रंग, बिजली की झालरें, भगवान की मूर्तियां, आदि), जिनका भारत में ही आसानी से उत्पादन किया जा सकता है, का एक तरह से बहिष्कार ही किया है। केंद्र सरकार ने भी अपने नागरिकों का भरपूर ध्यान रखते हुए ऐसी कई योजनाएं लागू की हैं जिससे विशेष रूप से गरीब वर्ग के नागरिकों की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बंधी जरूरतें पूरी हो सकें। महान्या गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरजीएस) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान किया जा रहा है इससे अप्रत्यक्ष तौर पर ग्रामीण परिवारों को अपनी आय के स्रोतों में बदलाव करने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के गरीब वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और इन योजनाओं के भारतीय नागरिकों पर पड़ने वाले

लाला लाजपतराय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। आजाद ने भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए दुर्गा भाभी को गांधीजी के पास भेजा था, लेकिन वहां से उन्हें कोरा जवाब मिला गया था। आजाद ने इन तीनों की सजा कम करने का काफी प्रयास किया था। वे पण्डित नेहरू से भी आग्रह किए थे कि तीनों की फांसी को रद्दकेंद्र में बदला दिया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। मनमोहन, चंद्रशेखर को 'आजाद' नाम एक खास वजह से मिला। चंद्रशेखर जब 15 साल के

थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने ने कहा, 'मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है'। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई, यही से उनका नाम आजाद पड़ गया। चंद्रशेखर पूरी जिंदगी अपने आप को आजाद रखना चाहते थे। अभिभूत आजाद का कहना था, देश की स्वतंत्रता के लिए विपत्तियों से युद्ध करना ही मेरा राष्ट्रधर्म है।

हे प्रभु करना मेरी वाणी शुद्ध, चलते रहें प्राण बिना अवरुद्ध, चक्षु से देखूँ सदा शुभ दृश्य, श्रोत्र से हो अच्छा सुनने का निश्चय, नाभि में ऊर्जा होती रहे समाहित, हृदय में होता रहे रक्त प्रवाहित, मानव तन में दिखती रहे भव्यता, प्रभु, तन मन में बनी रहे दिव्यता। निकले कंठ से मधुर गान, करके भला बड़ वाजुओं का मान, मस्तिष्क पर प्रभु की दिव्यता छा जाए, सुपथ पर कदम बढ़ते चले जाएं, ध्यान प्रभु के चरणों में लगा रहे, मन मंदिर में ज्ञान की गंगा बहे, न लगे कोई लांछन दिखे सभ्यता, प्रभु, तन मन में बनी रहे दिव्यता। दुख दर्द हरने की मिले शक्ति, कष्ट सहन की बनी रहे भक्ति, भले ही मुसीबतों आ जाएं डेर, इनसे उबारने को न लगाना देर, तेरे बिन एक पल न जी पाऊं, दिव्यता से हर काम संभव कर पाऊं, दिखे मेरे हर पल गुणों में नम्रता, पथ तन मन में बनी रहे दिव्यता।



डॉ. विनोद कुमार शर्मा, चंडीगढ़

माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा का

# महाकुंभ आज से शुरू, पहले दिन अच्छा पेपर जाने से खिले परीक्षार्थियों के चेहरे

**संवाददाता हेमचंद्र नागेश**  
माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा का महाकुंभ आज से शुरू हो गया। पहले दिन हाई स्कूल कक्षा दसवीं का हिंदी का पेपर था। बच्चे परीक्षा केंद्र से हंसते मुस्कुराते बाहर निकलते दिखाई दिए। परीक्षा हॉल से निकलते ही बच्चों से बातचीत की। इस दौरान छात्रों ने बताया कि हिंदी का पेपर सरल आया था और सभी प्रश्न उनके सिलेबस से ही आए हुए थे। अब अगला पेपर 4 मार्च को है। परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई। जिले में कुल 65 केंद्र बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय पर 2 केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शासकीय बालक हाई स्कूल शामिल है। वहीं गरियाबंद ब्लॉक में 10 केंद्र बनाए गए हैं। हम सुबह 8-30 शहर के वाई नंबर 2 संतोषी नगर स्थित कन्या हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पहुंचे। यहां देखा की कन्या स्कूल की छात्राओं का सेंट बनाया गया था। जो गेट खुलने का इंतजार कर रही थी जैसे ही परीक्षा केंद्र का गेट खुला तो

छात्राओं द्वारा लाइन लगाकर पहले अपने अपने रोल नंबर वोट पर लगे परिचय में तलाश की है उसके बाद वह गेट से आगे



बढ़ी तो शिक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों की तलाशी ली जा रही थी। वहीं उनकी सामग्री भी चेक कर रहे थे वहीं कुछ छात्राओं के अतिरिक्त सामग्री थी उसको भी परीक्षा केंद्र के बाहर

ही जमा करवाई गई। इस केंद्र में 257 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं बालक हाई स्कूल में 242 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी

का पेपर अच्छा गया जो प्रश्न आए थे वह भी बहुत सरल थे और सिलेबस के ही थे जिससे उनका पेपर काफी अच्छा गया उन्होंने परीक्षा केंद्र के बाहर निकल कर खुशी का इजहार भी किया। और साथ ही 4 मार्च शनिवार को अंग्रेजी विषय का एग्जाम की तैयारी करना भी बतलाया, उड़नदस्ता की टीम द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा का जायजा लिया गया वहीं केंद्राध्यक्षों से परीक्षा के विषय में जानकारी ली कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई परेशानी तो नहीं आ रही। परीक्षार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रो. व्ही.के. गोयल के निर्देशानुसार हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 18002334363 पर प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे निरंतर विद्यार्थियों, पालकों, शिक्षकों द्वारा अपनी समस्याएं बनाई जा रही हैं। जिसका मंडल द्वारा त्वरित समाधान किया जा रहा है

**पहले दिन अच्छा पेपर जाने से खिले परीक्षार्थियों के चेहरे**-अलिशा कनिष्का और सबरीना ने बतलाया, पहला पेपर हिंदी का रखा गया था जिससे सभी विद्यार्थियों

## एम पी नॉर्थन क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 फाइनल में पहुंची सूर्या रोशनी और जे के टायर

**पुष्पांजली टुडे संवाददाता पहलवान सिंह राजावत**  
मालनपुर। उद्योग क्षेत्र स्थित सूर्या रोशनी ग्राउंड में आज नॉर्थन क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में सूर्या रोशनी और जे बी मंगराम बीच खेला गया जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्या रोशनी ने 193 रनों का लक्ष्य दिया जिसके जवाब जे बी मंगराम 71 रनों पर ऑल आउट हो गईं में हरया मैच में सानंदर प्रदर्शन शिवप्रताप सिंह राजावत ने 48 रनों की शानदार पारी खेली सी जी पावर ग्राउंड में कैडबरी और जे के टायर के बीच खेला गया। जिसमें कैडबरी ने पहले खेलते हुए 143 रनों का लक्ष्य दिया जिसके जवाब जे के टायर नहीं 2 विकेट से मुकाबला जीत लिया और फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी फाइनल 4 फरवरी सूर्या की ग्राउंड में खेला जाएगा जे के टायर और सूर्या के बीच मुकाबला होगा।



## बिजली लगाने के लिए पैसे नहीं हमारी भी सुनो सरकार

**संवाददाता हेमचंद्र नागेश**  
छुरा। नगर पंचायत छुरा के आवास पारामें 55 वर्षीय बुजुर्ग कुमार यादव अपने पोता और पोती के साथ कई वर्षों से निवास कर रहे हैं। जिसके बेटे का नाम धर्मद यादव एवं उसकी बहू का नाम पुष्पा यादव है पुष्पा यादव अपने दूसरे नंबर के बच्चे को जन्म देते ही उनकी देहांत हो गई। उसके बाद पुष्पा यादव के पति धर्मद यादव अपने दोनो बच्चों को अपने पिताजी के पास छोड़कर लापता हो गया। बुजुर्ग कुमार यादव के द्वारा बताया गया कि उन्हें शासन प्रशासन द्वारा मात्र 10 किलो चावल एवं 2 किलो नमक 2 किलो चना एक किलो शकर इतना ही राशन कांड दिया जा रहा है उसके घर में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। छोटे से दिया सलाई के भरोसे रहते हैं। बिजली ऑफिस में जाकर बिजली की मांग किया गया तो कर्मचारियों ने प्राइवेट लगाना पड़ेगा और 3000 हजार खर्च कुमार

यादव को बताया गया जो खर्च करना उसके बस की बात नहीं मदद के लिए बहुत भटके कहीं से मदद नहीं मिल पाया इंडियन रेड क्रॉस संरक्षक सदस्य व



समाजसेवी मनोज पटेल को यह जानकारी होते ही मुलाकात करने पहुंचे उनके घर की स्थिति देखकर शासन-प्रशासन से निवेदन किया ऐसे पीड़ित परिवारों की मदद तत्काल करने अपील भी किया।

## राष्ट्रीय अधिवेशन से मिलेगा राष्ट्र को नई उजा: आशीष पांडे

**संवाददाता हेमचंद्र नागेश**  
किसान कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आशीष पांडेय ने राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महा अधिवेशन में शामिल होने के बाद कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कर संपूर्ण भारत को जोड़ने व एक करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में हो रहे राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन राष्ट्र के प्रत्येक कार्यकर्ता में नये उर्जा का प्रवाह करेगा जिससे कांग्रेस पार्टी और भी मजबूत होगी। सीएम बघेल ने स्वागत भाषण में कहा कि राहुल के जो सपने थे, जो विजन था, उस रास्ते पर ही चलकर आज हमने किसान, मजदूर, महिला, युवा, आदिवासी, अनुसूचित जाति सभी वर्ग के लोगों के हाथ में काम दिया है। यही वजह है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे कम

बेरोजगारी की दर है। जब मैं मुख्यमंत्री



बना तो राहुल ने कहा था कि सरकार ऐसी

बननी चाहिए कि सभी वर्ग को लगे कि सरकार मेरी है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे विधायक, मंत्री व नायबों के सहयोग से राहुल ने जनता से जो वादा किया था, उसे हम पूरा करने में सफल हुए। किसान कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आशीष पांडे ने कहा यह अधिवेशन ऐसे समय में हो रहा है जब देश महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहा है। किसानों को दाम नहीं, मजदूरों और नौजवानों के लिए काम नहीं। ऐसे समय में जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा करते हैं। आज पूरा देश राहुल को बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। कांग्रेस के अधिवेशन में देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें हैं। आज पड़ोसी देशों से हमारे संबंध ठीक नहीं हैं। प्रथम प्रधानमंत्री


जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के रास्ते से सरकार भटक गई है। यह सौभाग्य की बात है कि ये गुंडाधुर, शहीद वीर नारायण सिंह, माता कौशल्या और शबरी की धरती है और इस धरती में पूरे देश के अतिथियों का स्वागत करने का अवसर हमें मिला है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। हम छत्तीसगढ़वासियों के लिए गर्व व खुशी की बात है। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण है। कांग्रेस देश का अकेला राजनैतिक संगठन है जिसका गठन आजादी से पहले हुआ था। देश की आजादी की लड़ाई में नेतृत्व किया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तीन हजार 900 किलोमीटर तक यात्रा की। यह यात्रा देश के नवनिर्माण में गेमचेंजर साबित होगा।

## थाना मौ पुलिस द्वारा एक साल पुराना धारा 307 भादवि के अपराध का किया खुलासा

थाना मौ जिला भिण्ड द्वारा अवैध एक 315 बोर का कट्टा व एक जिन्दा राउण्ड सहित आरोपी गिरफ्तार

**पुष्पांजली टुडे रिपोर्टर डॉ. बेताल सिंह गौड़**  
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिण्ड श्री शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में चलाये जा रहे गम्भीर अपराधों में फरार आरोपियों की धरपकड़ कार्यवाही के तहत दिनांक 02/03/2023 को थाना मौ पुलिस ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिण्ड श्री कमलेश कुमार खरपुसे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गोहद श्री सोरभ कुमार के मार्ग दर्शन में फरियादी कल्लू उर्फ कलियान सिंह यादव निवासी ग्राम गुरियाची थाना मौ जिला भिण्ड ने दिनांक 02/02/2020 को रात में अज्ञात

बदमाशों ने मेरे पिता रुस्तम सिंह यादव को गोली मारी जो एक हाथ में लगी दूसरी सर को छूकर निकल गई उक्त रिपोर्ट पर से थाना मौ मे अपराध क्रमांक 21/2022 धारा 307 भादवि का अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना मजहब अपने कथनों में घटना को छिपाते



हुये पुलिस को गुमराह करता रहा। थाना मौ पुलिस ने घटना की सही तस्दीक और विवेचना की और पाया कि मजहब रुस्तम सिंह ने स्वयं के द्वारा कट्टे से हाथ में गोली लग गई थी जिसको छुपाने के लिये वह अपने विरोधियों पर धारा 307 भादवि का झूठा अपराध कायम कराना चाहता था।

आरोपी रुस्तम सिंह यादव पुत्र मेहरबान सिंह यादव निवासी ग्राम गुरियाची के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित कर उसके कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा 315 बोर का जिन्दा राउण्ड के साथ गिरफ्तार कर आरोपी को जे. आर पर माननीय न्यायालय गोहद पेश किया गया। पुलिस टीम उक्त सराहनीय कार्य में पुलिस थाना मौ के निरीक्षक उदयभान सिंह यादव, जिन अरविन्द यादव, जिन प्रवेन्द सिंह, आर 62 अजय यादव, आर 1091 जहीर, आर 930 ओमबीर सिंह, व्ही. डी. एस. वीर सिंह की सराहनीय भूमिका रही है।

## बैंकों में या बैंकों से शुरू होने वाली घटनाओं को रोकने हेतु, थाना प्रभारी मेहगांव की पहल

महेंद्र शर्मा उपसंपादक पुष्पांजली टुडे




**मेहगांव।** बैंक परिसर किए चेक, ग्राहकों को बैंकों में लेनदेन करने समय रखने वाली सावधानियों से अवगत कराया साथ ही बैंक मैनेजर व अन्य स्टाफ को सतर्क रहकर ग्राहकों की मदद करने की सपझाईश दी। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी सदिग्ध व्यक्ति बैंकों व बैंकों के आस पास नजर आने पर तत्काल थाना मेहगांव पुलिस को सूचित करें। जनता से मेहगांव पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि बैंकों में लेनदेन करते समय रहे सतर्क, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने अकाउंट व ओटीपी की जानकारी न दे। किसी अनजान व्यक्ति से एटीएम में या किसी भी बैंकिंग गतिविधि में सहायता प्राप्त नहीं करें। बुजुर्ग व महिलाओं को बनाते है ठग अपना शिकार अतः बुजुर्ग व महिलाए को ज्यादा सतर्कता रखने की जरूरत है। बता दें कि थाना प्रभारी मेहगांव रविंद्र शर्मा द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के परिसर को चेक किया साथ ही बैंक मैनेजर व स्टाफ से भी संवाद किया तथा सभी को सतर्क रहने की सलाह दी।

## नेहरू युवा केंद्र द्वारा हर जिले में आयोजित होगा युवा संवाद, सामुदायिक संगठनों की भी होगी भागीदारी

**अनिल कुशवाहा प्रभारी, पुष्पांजली टुडे**  
शिवपुरी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा सामुदायिक संगठनों की भागीदारी से हर जिले में युवा संवाद- इंडिया 2047 का आयोजन 01 अप्रैल से 31 मई के किया जाना है। सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र को साकार करते हुए जिला स्तर पर आयोजित होने वाले युवा संवाद कार्यक्रम में इस बार समुदाय केंद्र संगठनों का सहयोग लिए जाएगा, जिससे अधिक से अधिक युवाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जा सके। युवा संवाद में अमृत काल के पंच प्रण से जुड़े विषयों पर संवाद किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक डॉ. सुरेंद्र शुक्ला ने बताया कि युवा संवाद में भागीदार बनने के लिए एक इच्छुक सामुदायिक संगठन जिलों के नेहरू युवा केंद्र कार्यालय अनाज मंडी के पास, आर्य समाज रोड शिवपुरी में 13 मार्च तक संपर्क कर पंजीयन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

## कैलारस में ह्यार सेकंडरी की परीक्षा शांति पूर्ण सम्पन्न



**परीक्षा के दौरान छात्र का हुआ स्वास्थ्य खराब कैलारस।** विकास खंड कैलारस के अंतर्गत बारवी की परीक्षा के लिए छः परीक्षा केंद्रों पर शांति पूर्ण परीक्षा हुई सम्पन्न। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देवेन्द्र हरदेनिया ने बताया कि ह्यारसेकंडरी के छः परीक्षा केंद्रों पर कुल में 2328 छात्र छात्रों में से 2224 उपस्थित हुए और 96 छात्र छात्रों अनुपस्थिति रहे वहीं उन्होंने बताया की श्रीमान कलेक्टर महोदय अंकित अस्थाना ने शांति पूर्ण परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं श्रीमान के आदेश का पालन करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर शांति

पूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराई गए सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस विभाग एसडीओपी कोच्छ, थाना प्रभारी वेदेन्द्र कुशवाहा राजस्व विभाग तहसीलदार भरत कुमार लगातार परीक्षाओं में संयोग मिल रहा है एवं टीम के साथ भ्रमण कर रहे हैं वहीं शिक्षा दुबारा अलग अलग टीम बनाकर परीक्षा केंद्र पर देवेन्द्र हरदेनिया, बीआरसीसी अनिल त्रवेदी, केशव शुक्ला, चंद्रप्रकाश शर्मा, मुकेश रजक द्वारा अलग अलग दल बना कर सुबह से ही सभी परीक्षा केंद्रों पर भ्रमण कर शांति पूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराई वहीं उन्होंने बताया कि सभी

केंद्राध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं किसी परीक्षा केंद्र पर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो आपको खिलाफ करवाई की जाएगी वहीं किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई समस्या हो तो तत्काल सूचित करें जिससे आप लोगों को समस्या का समाधान हो वहीं बारवी की परीक्षा के दौरान शा.कन्या.हा.सेकेंडरी परीक्षा केंद्र पर सुबह परीक्षा देते समय स्वास्थ्य खराब हो गया जिसकी जानकारी केंद्राध्यक्ष दुबारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देवेन्द्र हरदेनिया को दी गई तो जानकारी मिलते ही टीम के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और छात्र का डाक्टरों

दुबारा प्राथमिक उपचार कराकर पुनः परीक्षा में बैठाया गया वहीं एसडीओपी संजय कोच्छ एव तहसीलदार भरत कुमार ने बातया की सभी सेंटेंरों पर शांति पूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराई जा रही सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई हैं और सभी केंद्रों पर हमारे दुबारा भ्रमण किया जा रहा है अगर किसी परीक्षा केंद्र पर कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी छात्र छात्रों परीक्षा केंद्रों के बाहर किसी प्रकार के भ्रम में ना पड़े एव शांति पूर्ण परीक्षा दे।

कुछ नया करते समय न डरें और न शरमाएं



एक महिला होने के नाते आप कुछ भी नया करते समय अक्सर इस बात को लेकर डरती हैं कि निया क्या कहेगी। लोग अक्सर आपके खाने पीने पड़े और यहां तक कि आपकी निजी जिंदगी में एक टोक करना शुरू कर देते हैं लेकिन लोगों की बातों पर आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और इन बातों पर तो कभी भी किसी की नहीं सुननी चाहिए। आइए आपको बताते हैं वो तीन बातें जिन्हें लेकर आपको कभी शरमाना नहीं चाहिए।

आपको जो खाना है खाइए-अक्सर लोग आपके खाने पीने को लेकर सवाल करते हैं। ये बर्कू खाया इतना बर्कू खाती हो जरा कम ज्ञाया करो लेकिन इन सभी बातों पर बिना ध्यान दिए आप अपनी लपसंद चीजे खाइए। ऐसा करने में आपको जरा भी शर्माने की जरूरत नहीं है। खाना शरीर की एक स्वाभाविक जरूरत है और जिसको जितनी भूख लगेगी वो उतना खा सकता है। वहीं तो फिर इसमें मानना कैसा वहीं वैक्स नहीं करा पाई तो कैसी शर्मिंदगी-शरीर में थोड़े पैरों में बाल होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। अगर आप किसी जगह से वैक्स नहीं करा पाई हैं तो इसमें ना ही कुछ छुपाने वाली बात और ना ही शरमाने वाली।

घर का सामान लाने के लिए बाजार जाना जरूरी नहीं-घर का सामान आप ऑर्डर करके भी खरीद सकती हैं। आपका भी अपना कोई निजी समय होता है। अगर आप काम के बाद अपने लिए वक़्त नहीं निकाल पा रही तो बाजार जाने का समय बचा सकती हैं। घर ही ग्रीसरी या और भी कोई सामान आप ऑर्डर करके मंगवा सकती हैं।

# वेजिटेबल रिफाईंड तेल की जगह खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करें ये 5 स्वस्थ तेल



वेजिटेबल रिफाईंड तेल बहुत सारे रसायनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं लेकिन यह अत्यधिक प्रोसेस्ड होते हैं। इसके अलावा इनकी शोल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इन्हें प्रोसेस्ड और टर्नान्थिड करके टैंग किया जाता है। इसके बाद इन्हें ब्लिच किया जाता है और अधिक रसायनों के साथ मिलाया जाता है, जिससे ये अनहेल्दी हो जाते हैं। आइए आज वेजिटेबल रिफाईंड तेल के विकल्प के तौर पर अन्य स्वस्थ तेलों के बारे में जानते हैं।

**एवोकाडो का तेल**  
एवोकाडो का तेल जैतून के तेल जितना ही अच्छा और स्वस्थ होता है। इस तेल में ज्यादा स्वाद नहीं होता है, जो इसे पकाने के लिए और अधिक उपयुक्त बनाता है। इसके अलावा इसमें मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने के साथ-साथ विटामिन ई भी होता है, जो अवशोषित करने के लिए अच्छा है। बाजार में एवोकाडो का तेल महंगा मिल सकता है, लेकिन यह अन्य तेलों से बेहतर है।

**जैतून का तेल**  
कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जैतून का तेल सबसे स्वस्थ और बहुमुखी खाना पकाने के तेलों में से एक है। इसका उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक यह अतिरिक्त कच्चा हो। अतिरिक्त कच्ची जैतून के तेल में मोनोअनसैचुरेटेड

## फेशियल कराने के बाद न करें ये काम

खूबसूरती निखारने के लिए महिलाएं आमतौर पर फेशियल कराती हैं लेकिन क्या आप जानती हैं फेशियल कराने के बाद आपको बहुत सारी बातों का खास ख्याल रखना होता है। अगर नहीं जानती तो जान लें क्योंकि आपकी छेटी सी गलती आपके निखार को बेकार कर सकती है। आइए जानते हैं फेशियल के बाद क्या न करें।

**मेकअप**  
फेशियल करवाने के तुरंत बाद मेकअप नहीं करना चाहिए। दरअसल फेशियल करवाने के बाद त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं और ऐसे में अगर आप फेशियल के बाद मेकअप करते हैं तो इसमें मौजूद कैमिकल रिक्तन में चले जाते हैं। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है इसलिए फेशियल करवाने के बाद कम से कम 72 घंटे तक मेकअप से दूर रहें।

**मूंहा धोएं**  
फेशियल करवाने के 4 घंटे तक फेसवॉश नहीं करना चाहिए। अपनी त्वचा को फेशियल में इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट्स के फायदों को सोखने दीजिए। अगर चेहरा रुखा लग रहा हो तो फेस पर मिस्ट का इस्तेमाल करें और यदि चेहरा आँसूली हो रहा हो तो चेहरे पर ठंडे पानी के छीटे मार लें।

**शेडिंग**  
अगर आप कभी पार्लर जाती हैं और आपको फेशियल और शेडिंग दोनों करवाने हैं तो कभी भी फेशियल पहले कराने की गलती न करें।



**चेहरे पर वैक्सिंग न करवाएं**  
कभी भी फेशियल करवाने के तुरंत बाद चेहरे पर अपर लिप्स करवाने के लिए वैक्सिंग न करवाएं। बता दें फेशियल के बाद चेहरे की सबसे ऊपरी त्वचा बहुत मुलायम और संवेदनशील हो जाती है और वैक्स करने से उस पर बुरा असर पड़ सकता है।

**रूब न करें**  
अगर आपने फेशियल करवाया है तो चेहरे पर रूबरू का इस्तेमाल करने से बचे। यदि रूब फेशियल करवाने के तीन दिन तक रूबरू का इस्तेमाल करने से बचें।

**तिल का तेल**  
तिल के तेल में एंटी-ऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, जो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद सीसमोल और सेसमिनाल दिल के लिए काफी अनुकूल हैं और ये पार्किंसंस रोग के खिलाफ न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव प्रदान करने के लिए भी जाने जाते हैं। यह तेल खाना पकाने के लिए उपयुक्त है और इसमें हल्का पीछे स्वाद होता है, जो कई तरह के व्यंजनों के साथ अच्छी तरह से काम कर सकता है।

**अखरोट का तेल**  
अखरोट का तेल विटामिन के और ई, जिंक, कोलीन और फास्फोरस से भरपूर होता है, जो इसे वेजिटेबल रिफाईंड तेल का एक स्वस्थ विकल्प बनाते हैं। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स की भी अधिक मात्रा मौजूद है, जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर रखने, मधुमेह को नियंत्रित करने और बेहतर त्वचा प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं।

# त्वचा में नई जान डाल देंगे ये 7 घरेलू नुस्खे

भी महिलाएं खूबसूरत त्वचा हती हैं और इसके लिए बाजार से कई क्रीम आदि खरीदती हैं पर सकी जगह आप रसोई में मौजूद आम का भी इस्तेमाल कर सकती। इससे आपकी त्वचा भी बेहतरीनी और आप रसायनिक क्रीम से लेने वाले नुकसान से भी बची रहती। ये प्राकृतिक क्लींजर आपकी त्वचा को नरम और चमकदार नाने में मदद करते हैं। आप इन्हें रेलू नुस्खे या होम रेमेडी भी कह सकते हैं।



करेगा बल्कि आपके रोम छिद्र को खोलने स्किन को लचीला बनाने और टाइट करने में मदद करेगा।

**दही**  
आँसूली से लेकर कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ग्रे बेस्ट ऑप्शन है। दो छोटे चम्मच दही से तीन दिन के आखिर में मसाज करें और पानी से लें। यह आपकी स्किन को साफ रखेगा। साथ खराब होने से भी बचाएगा।

**मुल्तानी मिट्टी**  
अगर आपकी त्वचा आँसूली है तो आप मुल्तानी मिट्टी से बने पेस्ट को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नैचुरल क्ले है जो काफी लंबे समय से त्वचा को साफ करने और शुद्ध करने में उपयोगी की जाती रही है। स्किन केयर के लिए आयुर्वेद भी इसके फायदों पर जोर देता है।

**टमाटर**  
जब बात स्किन केयर के लिए नैचुरल मग्री की होती है तो ऐसे में टमाटर का नैचुरल नींजर पसंदीदा सामग्री है।आधे टमाटर को कून पर रब करने से अच्छा और आसान कुछ है हो सकता। यह सिर्फ न आपकी स्किन साफ

**पपीता**  
अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो ओटमील और थोड़े दूध में मेश किया पपीता मिलाकर त्वचा पर रब करें। चेहरे और गर्दन पर लगाने के बाद अच्छे से धो लें। यह सिर्फ आपकी स्किन को साफ नहीं करेगा (पपीते में पॉवरफुल क्लिंजिंग अंजाइम होते हैं) बल्कि टैन मिटाने दाग-धब्बे दूर करने में भी सहायक है।

**स्ट्रॉबेरी**  
आँसूली से कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मेश की हुई स्ट्रॉबेरी मेरा पसंदीदा ऑप्शन है। मेरे मन में इसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है सिर्फ इसलिए

नहीं कि यह खाने में काफी स्वादिष्ट होती है। स्ट्रॉबेरी में नैचुरल एंजाइम होते हैं जो कि स्किन के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तीन से चार स्ट्रॉबेरी को मेश करें और अपनी स्किन पर रब करें और पांच मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद चेहरे को धो दें। यह सिर्फ स्किन को ही सॉफ्ट नहीं करेगा बल्कि त्वचा को ब्राइट बना कर बाहर से विटामिन सी प्रदान करेगा।

**नींबू और संतरे का छिलका**  
अगर आपकी त्वचा ड्राई है और आप अपने कोम छिद्र को साफ कर उसपर से मिट्टी हटाना चाहते हैं तो यह मिश्रण आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। 10 छोटे चम्मच बादाम का तेल दस छोटे चम्मच जैतून का तेल और नींबू का रस लें और एक बोतल में स्टोर कर लें। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक छोटा चम्मच एक बार में लें और ऑरिज पील डालें। त्वचा पर आराम से रब करें। आंखों के पास के एरिया में भी रब करें। ऐसा करने से मिट्टी हटोगी और धीरे-धीरे डेड स्किन ऊपर जाएगी।

**बेसन**  
प्राचीन समय से बेसन हर तरह की स्किन को साफ करने के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता रहा है। इसे दही के साथ मिलाकर स्किन पर मसाज करें। यह आँसूली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा होता है और अगर आप इसे दूध के साथ मिव्स करके मसाज करते हैं तो यह सूखी त्वचा को साफ करने में मदद करता है। इनमें से आप जो भी पसंद करें उसे थोड़ा समझदारी के साथ इस्तेमाल करें।

# होंठों को गुलाबी और कोमल बनाते हैं ब्लूबेरी संतरा



स्वस्थ और कोमल होंठ आपकी खूबसूरती को उभारते हैं। कोमल होंठ पाने के लिए ब्लूबेरी चकोतरा जैसे फलों के सत्वों से युक्त लिप बाम लगाएं। फट होंठ पर नारियल तेल या जोजोबा ऑयल या ब्राउन शुगर लगाएं।  
 ■ **ब्लूबेरी- सुपरफूड** जैसे ब्लूबेरी युक्त लिप बाम इस्तेमाल करें। ब्लूबेरी एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से समृद्ध होता है जो समय से पहले उम्रदराज दिखने से बचाता है।  
 ■ **चकोतरा और संतरा** इनमें विटामिन ए सी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। चकोतरा में मौजूद पोटेशियम हानिकारक पाराबेनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए चकोतरा और संतरा युक्त लिप बाम लगाएं जिससे होंठों प्राकृतिक गुलाबी रंगत बरकरार रहेगी।  
 ■ **क्रीनबेरी या करीदा** इसमें विटामिन बी3 विटामिन बी5 और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो एंटीवायरल कारकों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान से बचाता है।  
 ■ **होंठों को करें रूब-होंठों से मृत त्वचा हटाने के लिए मल्टीपरपज ऑर्गेनिक बाम** का एक पतला सा लेयर होंठ पर लगाएं और फिर मुलायम टूथब्रश से हल्के हाथों से रूब करें इसके लिए नप टूथब्रश का इस्तेमाल करें।  
 ■ **नारियल तेल-फट होंठ की मृत त्वचा हटाने के लिए नारियल तेल और शुगर** का इस्तेमाल आसान उपाय है। थोड़े से ऑर्गेनिक नारियल तेल में जरा सा पिंसा चीनी मिला लें और फिर इस मिश्रण को हल्के हाथों से होंठ पर मलें। रूब के बाद पानी से धोकर होंठ पर लिप बाम लगा लें।  
 ■ **गुलाब जल और ग्लिसरीन** ये दोनों ही लाभकारी होते हैं। जहां गुलाब जल का इस्तेमाल आपके होंठों को हल्का गुलाबी रंगत देता है वहीं ग्लिसरीन मृत त्वचा हटाकर होंठों को कोमल बनाता है। होंठ के कालेपन व रूखेपन से छुटकारा पाने के लिए दोनों को मिलाकर होंठ पर लगाएं।  
 ■ **जोजोबा ऑयल-जोजोबा ऑयल** से होंठ की त्वचा को पोषण प्रदान करता है और मुलायम बनाता है। इसमें ब्राउन शुगर मिलाकर होंठ पर हल्के हाथों से मलें। कम से कम तीन-चार मिनट मलें।  
 ■ **ग्रीन टी ऑयल-यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है जो होंठों को चमकदार बनाता है।** फट होंठों के लिए यह एक प्रभावी उपचार है।

# सेटिंग स्प्रे बनाम सेटिंग पाउडर : जानिए इनमें से किसे चुनना है बेहतर

मेकअप को लंबे समय तक ठीक रखने में सेटिंग स्प्रे या पाउडर काफी मदद कर सकते हैं। हालांकि, कई लोगों को सेटिंग स्प्रे और पाउडर में अंतर नहीं पता होता है। ये दोनों उत्पाद त्वचा पर अलग-अलग तरीके से काम करते हैं और यह जरूरी नहीं है कि ये हर तरह की त्वचा पर सूट करें। आइए आज हम आपको सेटिंग स्प्रे और पाउडर में अंतर समेत इनके काम करने के तरीके के बारे में बताते हैं।

## सेटिंग पाउडर क्या है?

सेटिंग पाउडर दो तरह के होते हैं, जिसमें लूज और प्रेस्ड शामिल है और इसे लगाने के लिए ब्रश या पफ की आवश्यकता होती है। लूज पाउडर काफी महीन होता है और सिलिका जैसी सामग्री से बना होता है, जो मेकअप को हल्का कवरेज देकर चेहरे के अतिरिक्त तेल को अवशोषित करता है। प्रेस्ड या कॉम्पैक्ट पाउडर कई तरह के रंगों में आता है। यदि आप एक मेट एयरब्रश फिनिश चाहते हैं तो सेटिंग पाउडर आपका पसंदीदा उत्पाद होना चाहिए।

## सेटिंग स्प्रे क्या होता है?

सेटिंग स्प्रे एक फाइन मिस्ट स्प्रे होता है,

जो आपके पूरे मेकअप को एक ही बार में सेट करने में मदद करता है। मेकअप करने के बाद सिर्फ चेहरे के किसी एक हिस्से पर ही नहीं बल्कि पूरे चेहरे पर सेटिंग स्प्रे लगाया जा सकता है। यह हल्का होता है और पाउडर की तरह त्वचा के रोमछिद्रों में नहीं जाता है। इसका उपयोग हाइलाइटर को अधिक प्रभावी बनाने या नम आईशैडो लगाने के लिए भी किया जा सकता है।

## सेटिंग पाउडर का इस्तेमाल करने का तरीका

एक बार जब आप फाउंडेशन, कंसीलर, क्लश या किसी अन्य मेकअप उत्पाद को लगा लेते हैं, तो आप सेटिंग पाउडर का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। इसे लगाने के लिए एक छोटा और पफी मेकअप ब्रश चुनें। फिर ब्रश को पाउडर में घुमाएं और अतिरिक्त उत्पाद को झाड़कर नाक के किनारों, आंखों के नीचे और अपने टी जोन पर लगाकर हल्के हाथों से



समज करें।  
**इस तरह लगाएं सेटिंग स्प्रे**  
 जब आपका पूरा मेकअप हो जाए तो सेटिंग स्प्रे को अच्छे तरह हिलाएं। फिर स्प्रे को अपने चेहरे से करीब आठ इंच की दूरी पर लाएं। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने चेहरे के केंद्र के साथ-साथ अपने माथे पर भी स्प्रे करें। फिर अपनी ठुड़ी और गर्दन के किनारों पर भी स्प्रे करें। अंत में इसे कुछ सेकंड सूखने के लिए दें।  
 दोनों में से किसे चुनना चाहिए?  
 सेटिंग स्प्रे और पाउडर के बीच का अंतर जानना महत्वपूर्ण है ताकि आपके लिए यह निर्धारित करना आसान रहे कि दोनों में से आपकी त्वचा के प्रकार के लिए क्या उपयुक्त

## इस प्रकार सुंदर और लंबे होंगे नाखून

लड़कियों को लंबे-लंबे नाखून रखना पसंद होता है लेकिन इन्हें लंबा करना कोई आसान काम नहीं होता। अगर आसान होता तो हर किसी के हाथ में लंबे नाखून देखने को मिलते। कई लड़कियों के नाखून लंबे होते हैं तो सुंदर नहीं होते। नाखूनों को सुंदर और लंबा इस प्रकार बनायें। बहुत सारी महिलाओं के नाखून बढ़ते तो हैं लेकिन कमजोर होने के चलते जल्दी टूट जाते हैं। ऐसा हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है इसलिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट में बदलाव करना होगा। आपको कुछ ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा जिनसे आपके पोषक तत्व मिलें।

■ **संतरे का रस**: संतरे के रस को दस मिनट तक अपने नाखूनों पर लगाएं। इसके बाद अपने हाथों को गुनगुन पानी से धो लें। कुछ दिन तक ऐसा करने से आपके नाखून कुछ दिनों में बढ़ने लगेंगे।  
 ■ **ऑलिव ऑयल**: नाखून लंबे करने के लिए रोजाना ऑलिव ऑयल से नाखूनों की मालिश करें। विटामिन ई से भरपूर ऑलिव ऑयल नाखूनों को पोषण प्रदान करता है और खून का पलो नाखूनों तक बढ़ाता है जिससे नाखून तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं।  
 ■ **लहसुन**: नाखूनों को बढ़ाने के लिए लहसुन एक बेहतरीन उपाय माना जाता है। लहसुन को दो टुकड़ों में काट कर उसे 10 मिनट तक अपने नाखूनों पर रगड़ें। ऐसा करने से आपके नाखून कुछ ही दिनों में अच्छे खासे बढ़ जाएंगे।  
 है। बता दें कि सेटिंग पाउडर अतिरिक्त तेल को सोख सकता है। ऐसे में इसे आँसूली या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आदर्श माना जाता है। दूसरी ओर सेटिंग स्प्रे त्वचा को हाइड्रेट करने की क्षमता रखता है। ऐसे में यह रूखी त्वचा के लिए सबसे उपयुक्त है।

न्यूज़ ट्रेक...

सचिन और अंजलि ने बिल गेट्स से मुलाकात की

मुंबई। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात की है। सचिन ने गेट्स के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया ट्विटर पर साझा की हैं। इन तस्वीरों में सचिन के साथ ही उनकी पत्नी अंजलि भी हैं। पूर्व क्रिकेटर ने इसके साथ ही लिखा, हम सभी जीवनभर के लिए छात्र हैं। आज बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित परोपकार पर दृष्टिकोण हासिल करने का और सीखने का एक शानदार अवसर था, जिस पर हमारा फाउंडेशन काम करता है। सचिन का यह फाउंडेशन बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहायता करता है। उन्होंने कहा, विचारों को साझा करना दुनिया की चुनौतियों को हल करने का एक शक्तिशाली तरीका है। गेट्स, आपकी अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद। सचिन उस समूह का हिस्सा थे, जिसने गेट्स के साथ वर्षों में भाग लिया था। बात वही कि कैसे परोपकारी प्रयास सार्थक साझेदारी को प्रेरित कर सकते हैं और दुनिया पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। इस बैठक का आयोजन बिल एंड मेलांडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किया गया था, जो दुनिया भर में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर काम करता है।

अभिनेत्री कियारा महिला प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में कार्यक्रम पेश करेगी

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी पहली बार खेलें जाने वाले महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में कार्यक्रम पेश करेगी। बीसीसीआई महिला क्रिकेट के विकास के लिए महिला प्रीमियर लीग का आयोजन करा रहा है। इसका पहला मुकाबला 4 मार्च को यहां गुजरात जयंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। महिला आईपीएल के लिए नीलामी फरवरी 2023 को मुंबई में हुई थी। इसमें 1,500 खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया था। इसमें हर टीम को खर्च करने के लिए 12 करोड़ रुपये दिये गये थे। 12 खिलाड़ी अपने ही देश के जबकि 6 खिलाड़ी विदेशी खरीदे जा सकते थे। बल्लेबाज स्मृति मंधाना इस टीम में 3.40 करोड़ रुपये के साथ ही सबसे महंगी खिलाड़ी हैं।

भागवत कथा में सम्मिलित हुए सांसद डॉ.के.पी.यादव

शिवपुरी। प्रवास पर आए क्षेत्रीय सांसद सांसद डॉ.के.पी.यादव ग्राम सिंहनिवास स्थित दिनेश रावत मंडल अध्येक्ष ग्रामीण के निवास पर आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के समापन समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर कथा व्यास से सांसद डॉ.के.पी.यादव ने आशीर्वाद प्राप्त कर क्षेत्र की खुशहाली की मंगल कामना की। इस अवसर पर उनके साथ सांसद प्रतिनिधि मुकेश चौहान, हेमंत ओझा, रामजी व्यास, राज नारायण गुप्ता,मयंक दैक्षित वेदांशु सविता, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष संजय कुशवाह सहित अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आईपीएल में इस बार इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

मुंबई। इस माह के अंत में शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 16 वें सत्र में एक बार फिर दुनिया भर के आक्रामक बल्लेबाजों को चौंके, छक्के लगाते हुए देखने का अवसर क्रिकेट प्रशंसकों को मिलेगा। आईपीएल विश्व की सबसे बड़ी लीग है और इसमें विश्व क्रिकेट के सभी देशों के स्टार खिलाड़ी खेलते हैं। इस

लीग में दक्षिण अफ्रीका के भी कई क्रिकेटरों ने अपने खेल से सभी का ध्यान खींचा है। इस बार ये क्रिकेटर कर सकते हैं कमाल डेविड मिलर : मध्य क्रम में डेविड मिलर एक आक्रामक बल्लेबाज हैं। वह पिछले कई साल से आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उनके पास काफी अनुभव भी है। पहली बार

2012 में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) से खेलने वाले मिलर ने पिछले साल 2022 में गुजरात टाइटंस को पहली बार विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मिलर बीच के ओवर्स में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐडन मार्करम : ऐडन मार्करम को सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें अपनी आईपीएल टीम का

कप्तान बनाया है। अब वह इस सत्र में अपनी टीम को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। मार्करम इस प्रारूप में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले उन्होंने एप्रैल 2022 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। क्रिंटन डिकॉक : आईपीएल की नई टीम लखनऊ में शामिल

बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रिंटन डिकॉक को विश्व के सबसे आक्रामक सलामी बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। डिकॉक शीर्ष क्रम में पावरप्ले के दौरान किसी भी गेंदबाजी आक्रमक को धवस्त कर सकते हैं। उनके पास अच्छी तकनीक है। वह तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनर्स को भी काफी अच्छे से खेलते हैं। डिकॉक

आईपीएल में लगातार बढ़िया खेलते आए हैं। ट्रिस्टन स्टुब्स = दक्षिण अफ्रीका का यह युवा क्रिकेटर कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित कर चुका है। पिछले साल बीच टूर्नामेंट में तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स के घायल होने के बाद मुंबई इंडियंस ने इस 22 वर्षीय विकेटकीपर मध्य क्रम के बल्लेबाज को शामिल किया था।

राहुल को उपकप्तानी से हटाना किसी प्रकार का संकेत नहीं: रोहित



इंदौर। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि लोकेश राहुल का उपकप्तानी से हटाने का यह मतलब नहीं है कि उन्हें बाहर किया जा रहा है। तीसरे टेस्ट से पहले रोहित ने कहा कि प्रबंधन खिलाड़ियों का समर्थन करता रहेगा। रोहित और शुभमन गिल ने मंगलवार को वैकल्पिक अभ्यास में साथ-साथ नेट्स पर बल्लेबाजी की जबकि राहुल ने टीम के अधिकारियों सदस्यों के साथ होटल में रहने का फैसला किया। गिल और राहुल दोनों ने सोमवार को ट्रेनिंग सत्र के दौरान एक साथ बल्लेबाजी की थी। 47 टेस्ट के बाद राहुल का औसत 33.4 का है, जबकि शुभमन ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में जमकर रन बनाये हैं। इसके बाद से ही वह टेस्ट में अवसर का इंतजार कर रहे हैं। राहुल, जो अपनी पिछली 10 टेस्ट पारियों में केवल 25 रन बनाने के कारण दूसरे टेस्ट के बाद उप-कप्तान के रूप में हटा दिया गया, जिसके बाद माना जा रहा था कि उन्हें अगले दो टेस्ट में जगह नहीं

म्रम 2023 विश्वकप तक शायद ही वापसी कर पायें: गांगुली

मुंबई। भारतीय क्रिकेट टीम के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज म्रम पंत कब वापसी करेंगे यह अभी भी पता नहीं चला है। कार हदसे के बाद से ही वह अभी ठीक होने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्हें पूरी तरह से फिट होने में छह माह लगेगे। इसी कारण वह आईपीएल से भी बाहर हो गये हैं। म्रम आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट निदेशक सौरव गांगुली ने कहा है कि इस क्रिकेटर का एकदिवसीय विश्व कप 2023 में खेलना संदिग्ध है। गांगुली का कहना है कि हमें अभी भी इसका पता लगाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अगला शिबिर आईपीएल से पहले शुरू होगा। उन्होंने कहा, आईपीएल अभी एक महीने दूर है और सीजन अभी शुरू हुआ है। सभी खिलाड़ियों को एक साथ लाना मुश्किल है। चार या पांच क्रिकेटर हैं जो इरानी टूर्नामेंट खेल रहे हैं। सरफराज की उमाली में चोट लगी है और यह चोटिल है। वह आईपीएल के लिए ठीक होना चाहिए। कैपिटल्स ने अभी तक म्रम के विकल्प का नाक घोषित नहीं किया है। इसपर गांगुली ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स के पास युवा विकेटकीपर अभिषेक पोरेल और अनुभवी शोल्डन जैक्सन जैसे खिलाड़ी हैं। वहीं, म्रम को लेकर कहा कि मैंने उनसे कई बातें की हैं। वह चोटों और सर्जरी के माध्यम से कठिन दौर से गुजर रहे हैं और मैं उनके अच्छे होने की कामना करता हूँ। एक साल के समय में या कुछ वर्षों में हो सकता है, वह वापस खेलेंगे।



मिलेगी। रोहित ने कहा, मैंने पिछले मैच के बाद भी इसके बारे में बात की थी। जो खिलाड़ी कठिन समय से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी क्षमता को देखते हुए अपने को साबित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। उस समय वे उपकप्तान थे। किसी का उपकप्तान होना और ना होना, आपको किसी भी तरह के संकेत नहीं देता है। उन्होंने आगे कहा, हां, यह बात है कि शीर्ष क्रम ने अभी तक उतने रन नहीं बनाए हैं, जितनी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन हमारी कोशिश है कि शीर्ष स्तर पर क्वालिटी लाई जाए, जिसका परिणाम जरूर मिलेगा।

कार्तिक ने बताया , धोनी के कारण वह सभी प्रारूपों से बाहर हुए



मुंबई। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को महेन्द्र सिंह धोनी के शानदार प्रदर्शन के कारण अपने करियर में खेलने के ज्यादा अवसर नहीं मिले। धोनी ने हर प्रारूप में अपनी जगह बनायी जबकि कार्तिक उनसे कुछ समय पहले टीम में आये थे। अ कार्तिक ने आरसीबी पोडकास्ट में पूर्व कप्तान धोनी के दौर को याद किया और बताया कि कैसे उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में उनकी जगह हासिल कर ली। कार्तिक ने आरसीबी पोडकास्ट में कहा, मैंने उनसे पहले डेब्यू किया था। मैं और धोनी भारत ए दौर पर साथ गए थे और वहां से मुझे पहले भारतीय टीम के लिए चुना गया था जबकि धोनी अभी भी भारत ए टीम में थे। यह पहली बार था, जब मैंने धोनी के साथ चार दिवसीय मैच खेला था। तब मैंने अच्छा प्रदर्शन किया कि और चयनकर्ताओं ने मुझे भारतीय टीम के लिए चुना। वहीं धोनी को दूसरे दौर पर मौका मिला, वह एकदिवसीय टूर्नामेंट था जहाँ धोनी ने अपने खेल से सभी को हैरान कर दिया। वहीं प्रशंसक धोनी के लिए खड़े हो गए और कहा कि उनके जैसा कोई नहीं



है। उन्होंने कहा कि धोनी एक विशेष खिलाड़ी है। जाहिर तौर पर मैं भी उसी समय भारतीय टीम में आया था पर धोनी का चुनना पड़ना बड़ गया था कि टीम को उन्हें चुनना पड़ा और फिर इसके बाद धोनी ने सभी प्रारूपों में धमका कर मुझे पूरी तरह से बाहर कर दिया। अंत में यह अवसरों के बारे में है। आपको अवसरों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना होगा। कार्तिक ने कहा, मैं क्रिकेट में महारत हासिल करना चाहता था। मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बनने की राह पर था। धोनी पहले ही वहां थे। वह अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे थे। मुझे पता था कि उन्होंने सभी फॉर्मेट में जगह बना ली थी। धोनी ने शुरूआत में कोई दिक्कत नहीं की थी। उन्होंने एकदिवसीय में शतक बनाया। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में गए और 85 रन बनाए। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि धोनी रतों-रत बांड बन गए, लोग उनके पीछे थे और धोनी शुरू से ही बेहत लोकप्रिय खिलाड़ी थे। मैं हमेशा से ही समझदार था, लेकिन हमेशा मौकों की तलाश में रहता था, कुछ खास करने की कोशिश करता रहता था।

व्यापारन्यूज

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गयी है। दुनिया भर के बाजारों में सोने और चांदी की कीमतें कम होने से ये गिरावट आई है। राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें 110 रुपये की गिरावट के साथ ही 55,550 रुपये प्रति 10 ग्राम रहे गयीं। गत कारोबारी सत्र में सोना 55,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था वहीं। चांदी की कीमत भी 550 रुपये टूटकर 63,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,808 डॉलर प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी भी गिरावट के साथ 20.47 डॉलर प्रति औंस पहुंच गयी। बाजार जाकारों के अनुसार एशियाई कारोबार में डॉलर में आई शुरुआती गिरावट का रुख बाद में विपरीत हो गया और अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने से कॉम्बेक्स में सोने में आई तेजी गिरावट में बदल गयी। वहीं सोने के साथ-साथ चांदी में भी गिरावट देखने में आई।

रुपए में आई तेजी

मुंबई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को रुपये में तेजी आई है। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे ऊपर आकर 82.36 पर पहुंच गया। विदेशी कोषों के लगातार बाहर जाने से भी रुपये की बढ़त पर अंशदा लगा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 82.48 पर खुला और यह गत दिवस बंद भाव के मुकाबले 22 पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए 82.36 के स्तर पर पहुंच गया। गत दिवस रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 82.58 पर बंद हुआ था। वहीं छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 फीसदी नीचे आकर 104.84 पर पहुंच गया। कच्चा तेल वरुड वायदा 1.75 फीसदी बढ़कर 83.89 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। डॉलर में गिरावट से भी रुपये को बल मिला है।

शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला, खरीदारी से आया उछाल

मुंबई। मुंबई शेयर बाजार बुधवार को उछल के साथ खुला। सप्ताह के तीसरे ही कारोबारी दिन दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों और खरीददारी से बाजार में ये उछाल आया है। इससे पहले के सत्र गिरावट के रहे हैं। आज घरेलू निवेशकों के सकारालत्मक रुख से बाजार को बल मिला है। बाजार खुलते ही निवेशकों ने खरीदारी शुरू कर दी। वहीं पिछले दो सत्र में बाजार में गिरावट हावी रही थी। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सुबह 174 अंक ऊपर आकर 59,136 पर खुला जबकि पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 56 अंकों की बढ़त के साथ ही 17,360 अंक पर खुला और कारोबार शुरू हुआ। बाजार में निवेशकों ने आज शुरू से ही खरीदारी की जिससे

बाजार को बल मिल और वह ऊपर आने लगा। निवेशकों का रुख भी आज सकारालत्मक दिखा। सुबह 9.33 बजे सेंसेक्स 200 अंक बढ़कर 59,163 पर कारोबार करने लगा जबकि निफ्टी 70 अंकों की तेजी के साथ 17,374 पर पहुंच गया है। निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 पर आज 0.4 फीसदी तक ऊपर आये। आज कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी धातु शेयरों में रही। इस इंडेक्स में करीब 2 फीसदी का

उछाल आया। वहीं निफ्टी मीडिया और एफएमसीजी क्षेत्र में आज गिरावट रही। निवेशकों ने आज शुरूआत से ही अडानी इंटरप्राइजेस, हिंडालको, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट और एमएण्डएम जैसी कंपनियों के शेयरों की खरीददारी की। इससे ये सबसे ज्यादा लाभ वाले शेयरों में आ गये। दूसरी ओर अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटेनिया, एचडीएफसी लाइफ, और कंज्यूमर और एनबीआई लाइफ इश्यूरेंस डू जैसी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली हावी रही और ये सबसे नुकसान वाले शेयर बन गये।



5जी तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में गेमचेजर होगी

मुंबई। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो के प्रमुख आकाश अंबानी ने कहा कि उच्च गति वाली 5जी प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों का कायाकल्प करने में मददगार साबित होगी। अंबानी ने कहा प्रस्तावों पर आयोजित एक वेबिनार में कक्षा कि अत्याधुनिक दूरसंचार नेटवर्क प्रौद्योगिकी शहरों को स्मार्ट बनाने के साथ समाज को सुरक्षित बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि देश में 5जी

प्रौद्योगिकी की शुरुआत होने के छह महीनों में ही यह दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने लगी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जियो ने ही देश के 277 शहरों में 5जी नेटवर्क पर आधारित 'दूर 5जी सेवा' शुरू कर दी है। हम दिसंबर के अंत तक देश के हर कस्बे और तहसील तक 5जी सेवा की पेशकश करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसके लिए हर महीने हम अपना 5जी नेटवर्क विस्तार करने में जुटे हुए हैं। आकाश ने कहा कि 5जी नेटवर्क की पहुंच दूरदराज के इलाकों तक होने का देश

की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, 5जी हमारे शहरों को स्मार्ट और समाज को सुरक्षित बनाएगी। इससे आपातकालीन सेवाओं को भी त्वरित और उद्योग को अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 5जी प्रौद्योगिकी से लैस एंबुलेंस न सिर्फ दूर रहते हुए भी आपातकालीन मदद पहुंचाने में मदद मिलेगी बल्कि अस्पतालों को बिना कोई समय गंवाए फौरन मरीज की स्थिति के बारे में चिकित्सकीय जानकारी भेजी जा सकेगी।

लॉन्ग जर्नी के लिए टाटा नेक्सन को किया जा रहा पसंद, यूएसवी की बढ़ी डिमांड

नई दिल्ली। देश में लॉन्ग जर्नी के लिए टाटा नेक्सन को पसंद किया जा रहा है। यह एसयूवी देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहती है। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में इसके बाद हूड्डेड क्रैटा और मारुति सुजुकी की ब्रेजा का नंबर आता है। ये दोनों कारों की बिक्री नेक्सन से कम रहती है। पिछले महीने यानी जनवरी 2023 के आंकड़ों को देखें तो आंतरिक-दहन-इंजन और इलेक्ट्रिक मॉडल में उपलब्ध नेक्सन एसयूवी बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी रही है। पिछले वर्ष और चालू वर्ष के जनवरी के रिकॉर्ड की तुलना करने पर नेक्सन की बिक्री 13,816 यूनिट से बढ़कर 15,567 यूनिट हो गई है। यह नंबर बीते साल के आखिर महीने यानी दिसंबर में बिक्री 12,053 यूनिट से भी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ, जनवरी 2023 में हूड्डेड क्रैटा को 15,567 और मारुति ब्रेजा को 11,200 ग्राहकों ने खरीदा है। नेक्सन की कीमत 7.80 लाख रुपये से 14.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है।

नेक्सन का 'रेड ड्रॉक' वेरिएंट 12.35 लाख (एक्स-शोरूम दिल्ली) से शुरू होता है। इसे 8 मॉडल में खरीदा जा सकता है। इसमें एक्सई, एक्सएम, एक्सएम (एस), एक्सएम+ (एस), एक्सप्लेड+, एक्सप्लेड+ (एचएस), एक्सप्लेड+ (एल) और एक्सप्लेड+ (पी) डार्क एंड रेड ड्रॉक एडिशन एक्सप्लेड+ से शुरू होकर उपलब्ध है, जबकि काजीरंगा एडिशन टॉप मॉडल एक्सप्लेड+ और एक्सप्लेड+ ट्रेम्स पर उपलब्ध है। इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक वर्जन भी में उपलब्ध है। नेक्सन दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें एक 1.2-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5-लीटर 4-सिलेंडर डीजल इंजन है, जो ज्यादा पावरफुल है। दोनों इंजनों को 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या छह-स्पीड एएमटी के साथ जोड़ा जाता है। नेक्सॉन में नए जमाने के सभी फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार्पले के साथ 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनेटमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर, वॉयस कमांड, एक क्रूड लीव बॉक्स, रियर वेंस के साथ ऑटो एसी, करूज कंट्रोल और रेन-सेंसिंग वाइपर भी हैं।

होंडा 350 सीसी में कैफे रेसर मॉडल करेगी लॉन्च नई दिल्ली। जापानी कंपनी होंडा अपना 350 सीसी में कैफे रेसर मॉडल लॉन्च करने जा रही है। अब बताया जा रहा है कि इसी फाइनलियल इंवर में होंडा इसे लॉन्च कर देगी। सीबी 350 कैफे रेसर का इंजन काफी समय से किया जा रहा था और अब कंपनी ने इसका डीजर शोकेस कर दिया है। होंडा ने ये प्रॉपर कैफे रेसर डिजाइन की है और इसे निचो रेट्रो लुक दिया गया है। होंडा की कैफे रेसर सीबी टकर रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों को देगी। खासकर इंटरसेप्टर और कॉन्टीनेंटल जीटी के लिए ये कड़ी टकर साबित होगी। खासकर इन दोनों ही मोटरसाइकिलों के सामने होंडा की मोटरसाइकिल की अनुमानित कीमत कम है। ऐसे में इसका बड़ा एडवांटेज होंडा को मिलेगा। मोटरसाइकिल में कंपनी सीबी 350 इंजन का ही यूज कर रही है। ये 21 पीएस की पावर और 30 एनएम का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। मोटरसाइकिल में 5 स्पीड गियर बॉक्स है और ये असिस्ट स्लीपर क्लच, ड्रुअल कैनल एबीएस, होंडा सलेक्टबल टॉर्क कंट्रोल और होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इसमें नया इंस्ट्रुमेंट कंसोल के साथ ही ट्रैडिशनल राउंड डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही सबल्यूड पयूल टैक, सिग्नल पीस सीट, क्रोम में एर्गोनॉस्ट, एलॉय व्हील, स्मार्टफोन के लिए यूएसबी पोर्ट, ऑल एनर्जी सेटअप और सेमी डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर दिया गया है। गौरतलब है कि सीबी 350 के प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी की तीसरी बाइक है। इससे पहले होंडा ने सीबी 350 को 2020 में रिलॉन्च किया था। इसके बाद कंपनी ने सीबी 350 का स्कैम्बलर एडिशन आरएस लॉन्च किया था। अब इसी प्लेटफॉर्म पर कंपनी एक और मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।



पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कई जगह आया बदलाव

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद घरेलू बाजार में बुधवार को कई जगहों पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव आया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से बुधवार सुबह जारी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कई जगह बदलाव दिख रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार में आज तेल के खुदरा दाम गिरे हैं। लखनऊ में पेट्रोल 10 पैसे सस्ता होकर 96.47 रुपये लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल की कीमतें भी 10 पैसे गिरी हैं और ये 89.6 रुपये लीटर पहुंच गया है। पटना में पेट्रोल 30 पैसे नीचे आकर 107.24 रुपये लीटर पहुंच गया जबकि डीजल 28 पैसे की कमी के साथ ही 94.04 रुपये लीटर पर मिल रहा है। गुरुग्राम में आज पेट्रोल 12 पैसे नीचे आया है। यह 96.77 रुपये लीटर रहा, जबकि डीजल 11 पैसे फिसलकर 89.65 रुपये लीटर बिक रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो बीते 24 घंटे में इसकी कीमतों में तेजी आई है। ब्रेट वरुड डेड डॉलर बढ़कर 83.89 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। वहीं डेब्यूटीआई के दाम भी बढ़त के साथ 76.59 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गये हैं। चारों महानगरों में दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। दिल्ली में पेट्रोल 96.65 रुपये और डीजल 89.82 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर पर बना हुआ है।

भारत को एक वैश्विक वाहन विनिर्माण केंद्र बनाने में जुटी मोदी सरकार : गडकरी नई दिल्ली। मोदी सरकार भारत को एक वैश्विक वाहन विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में जुट हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी ने बुधवार में टाटा मोटर्स की वाहन कबाड़ सुविधा का रविवार तारीके से उद्घाटन करते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में घरेलू वाहन उद्योग 15 लाख करोड़ रूप का होगा। गडकरी ने कहा कि वाहन उद्योग फिलहाल देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.1 प्रतिशत का योगदान देता है। उद्योग का आकार अभी 7.8 लाख करोड़ रूप है। गडकरी ने कहा, 'वाहन क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब चार करोड़ लोगों को रोजगार देता है। यह आंकड़ा 2025 तक बढ़कर पांच करोड़ होने की उम्मीद है। मैं देश को दुनिया का पहले नंबर का वाहन विनिर्माण केंद्र बनाने पर काम कर रहा हूँ। भविष्य में इस उद्योग का आकार 15 लाख करोड़ रूप का होगा। वहीं गडकरी ने कहा कि वाहन कबाड़ नीति से पुराने वाहनों को हटाने और चरणबद्ध तरीके से कम प्रदूषण वाले नए वाहनों को लाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, इस अनुभव है कि कबाड़ नीति से वाहनों की जो मांग पैदा होगी उससे सरकार को 40,000 करोड़ रूप का अतिरिक्त माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व मिलेगा। नई कारों के लिए कच्चे माल की लागत 30 प्रतिशत घटेगी। उन्होंने बताया कि भारत अभी सालाना 80 लाख टन कबाड़ इस्पात का आयात करता है। गडकरी ने कहा, करीब 50-60 करोड़ केंद्रों से इस्पात कबाड़ की आयात मांग घटेगी और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा।



